

**GOVT. DIGVIJAY AUTONOMOUS P.G. COLLEGE,  
RAJNANDGAON (C.G.)**



**DEPARTMENT OF HISTORY**

**SLOW AND ADVANCED LEARNER'S RECORD 2023-24**

छात्र/छात्राओं की व्यक्तिगत एवं विषय  
संबंधी समस्या निवारण की जानकारी

सत्र - 2023-24

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

क्र.	छात्र/छात्राओं का नाम	कक्षा	समस्या	दिनांक	समाधान	प्राध्यापक का नाम	विद्यार्थी का हस्ताक्षर	प्राध्यापक का हस्ताक्षर	विद्यार्थी का मोबाइल नं०
1.	अर्चना कोरवी	B.A. III Sem.	एडमिशन से Related समस्या थी/ documents से संबंधित	19/7/2023	विद्यार्थी को उचित मार्गदर्शन एवं सलाह	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	Anuma	[Signature]	7489185889
2.	गंगा साहू	M.A. I Sem.	एडमिशन फीस न देब पाने से संबंधित शार्विक समस्या था रही थी।	22/7/2023	महाविद्यालय के विवेकानन्द कोष से महाभ्रत संबंधी छात्रवृत्ति पदान की गई।	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	गंगा	[Signature]	8602130826
3.	मोहम्मद जैद	B.A. III Sem.	टाइम टेबल से संबंधित समस्या/र का (ही थी) शिका	27/7/2023	टाइम टेबल दिखाकर/समाझाकर, समस्या/शिका का समाधान किया गया।	जे. हिलेड लहडुकर डडुकर	[Signature]	[Signature]	8085376591
4.	मृणाली	M.A. part	एडमिशन फीस हेतु शार्विक समस्या	17/08/2023	विभाग, शार्विक सहायता और विवेकानन्द फंड के डारा सहायता पदान करके एडमिशन दिया गया।	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	मृणाली	[Signature]	9685326365
5.	पद्मिनी साहू	M.A. II sem.	NET/SET संबंधी कितना से Related समस्या बताई गई	12/12/2023	विभाग में उपलब्ध books पदान करके समस्या का समाधान किया गया।	हेमलता साहू	[Signature]	[Signature]	6266554784
6.									
7.									
8.									

[Signature]  
Dr. SHALENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Durgam P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)

**इतिहास विभागः**  
**सत्र-2023-2024**  
**विभागीय अकादमिक कैलेंडर**

क्र.	कार्यक्रम/गतिविधियां	प्रस्तावित तिथि
1.	विभागीय बैठक	जुलाई प्रथम सप्ताह
2.	अगस्त क्रांति	8 अगस्त
3.	पटेल जयंती	31 अक्टूबर
4.	शहीद वीर नारायण जयंती	10 दिसंबर
5.	शिक्षक अभिभावक सम्मेलन	जनवरी
6.	नेताजी सुभाष चंद्र जयंती	23 जनवरी
7.	नेट स्लेट हेतु कक्षाएं	जनवरी एवं फरवरी
8.	एल्यूमिनी' सम्मेलन	फरवरी प्रथम सप्ताह
9.	ऐतिहासिक भ्रमण क्षेत्रीय	फरवरी प्रथम सप्ताह
10.	राष्ट्रीय भ्रमण	फरवरी अंतिम सप्ताह

इसके अतिरिक्त समय अनुकूल शैक्षणिक एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विभिन्न व्याख्यान का आयोजन

Principal  
Govt. Digvijay College  
Rajnandgaon (C.G.)

*Singh*  
Dr. SHAILENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Digvijay P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)

क्र.	क्षेत्र/धारा का नाम	सितम्बर				अक्टूबर				नवम्बर				दिसम्बर			
		Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	
1.	चंदन यादव	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	रोमेश सेन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P
3.	दीक्षा	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विक्रम कुमार	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	A	P
5.	एलविश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	हर्षा यादव	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	हरीश कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8.	बिलेश्वरी सिंघा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A
9.	शिवेन्द्र कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	मुस्कान वंजारे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P
11.	शोशनी साहू	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	प्रमोद सिंघा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13.	रुग्हा प्रधान	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	विजय भाकंडे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	रामेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.	शिवम कुमार	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	धनेश्वर साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	शैल राज डी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19.	शोशनी राजपूत	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P
20.	तमन्ना	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P
21.	निशा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

पत्र - शनिवार

- सितम्बर - 9, 16, 23, 30
- अक्टूबर - 7, 14, 21, 28
- नवम्बर - 4, 18, 25
- दिसम्बर - 2, 9, 16, 23, 30

Teacher's Name

- 1) डॉ. शिवेन्द्र सिंह - [Signature]
- 2) प्रो. शिवेन्द्र बहादुर - [Signature]

Dr. SHAILENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Digvijay P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	सितम्बर				अक्टूबर			
		Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All
1.	अर्चना कोठारी	P	P	P	A	P	P	P	P
2.	मालती शादव	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	जाकाश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विवेक सिन्हा	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	मधु राजपूत	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	पाशेल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	जाकाश कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P
8.	एजलीना तिवारी	P	P	P	P	P	P	A	P
9.	मोहम्मद जैद के	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	समीर साहू	A	P	P	P	P	P	P	P
11.	इंकिता चन्डाकर	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	एकता सार्वी	P	A	P	P	P	P	P	P
13.	धनराज	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	रुण कान्त साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	मैधा वासुदेव	A	P	A	P	P	P	P	P
16.	रितेश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रिदिक देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	उमेश शादव	P	A	P	P	P	P	P	P
19.	पृथ्वी राय	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	मेधा	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	मुनेश ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	अभिनेह	P	P	P	P	A	P	P	P


प्रति सप्ताह - शुक्रवार

सितम्बर - 1, 8, 15, 22  
 अक्टूबर - 6, 13, 20, 27  
 नवम्बर - 3, 17, 24  
 दिसम्बर - 1, 8, 15

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	नवम्बर				दिसम्बर			
		Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All
1.	अर्चना कोठारी	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	मालती शादव	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	जाकाश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विवेक सिन्हा	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	मधु राजपूत	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	पाशेल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	जाकाश कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P
8.	एजलीना तिवारी	P	P	P	P	P	P	P	P
9.	मोहम्मद जैद के	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	समीर साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
11.	इंकिता चन्डाकर	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	एकता सार्वी	P	P	P	P	P	P	P	P
13.	धनराज	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	रुण कान्त साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	मैधा वासुदेव	A	P	A	P	P	P	P	P
16.	रितेश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रिदिक देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	उमेश शादव	P	A	P	P	P	P	P	P
19.	पृथ्वी राय	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	मेधा	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	मुनेश ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	अभिनेह	P	P	P	P	P	P	P	P

Teacher's Name

- 1) डॉ. अजय शर्मा
- 2) इमेलना साहू



विषय -

क्र.	धारा/धारा का नाम	जनवरी				फरवरी			
		Topic	Alt	Topic	Alt	Topic	Alt	Topic	Alt
1	श्रीलक्ष्मी	P	P	P	P	P	P	P	P
2	मुष्पा देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
3	मीमांसी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4	मीमांसी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
5	नेहा चादव	P	P	P	P	P	P	P	P
6	लीलि चादव	A	P	P	P	P	P	P	P
7		P	P	P	P	P	P	P	P
8		P	P	P	P	P	P	P	P
9		P	P	P	P	P	P	P	P
10		P	P	P	P	P	P	P	P
11		P	P	P	P	P	P	P	P
12		P	P	P	P	P	P	P	P
13		P	P	P	P	P	P	P	P
14		P	P	P	P	P	P	P	P
15		P	P	P	P	P	P	P	P
16		P	P	P	P	P	P	P	P
17		P	P	P	P	P	P	P	P
18		P	P	P	P	P	P	P	P
19		P	P	P	P	P	P	P	P
20		P	P	P	P	P	P	P	P
21		P	P	P	P	P	P	P	P

जनवरी - 6, 13, 20, 27  
फरवरी - 3, 10, 17, 24  
मार्च - 2, 9, 16, 23, 30

उत्ति सप्ताह - शनिवार

B.A. II semester

मार्च

क्र.	धारा/धारा का नाम	मार्च			
		Topic	Alt	Topic	Alt
1		P	P	P	P
2		P	P	P	P
3		P	P	P	P
4		P	P	P	P
5		P	P	P	P
6		P	P	P	P
7		P	P	P	P
8		P	P	P	P
9		P	P	P	P
10		P	P	P	P
11		P	P	P	P
12		P	P	P	P
13		P	P	P	P
14		P	P	P	P
15		P	P	P	P
16		P	P	P	P
17		P	P	P	P
18		P	P	P	P
19		P	P	P	P
20		P	P	P	P
21		P	P	P	P

Teacher's name

- 1) डॉ. शैलेंद्र सिंह
- 2) प्रो. हिरेन्द्र काठुवा शर्मा

विषय -

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	सितम्बर				अक्टूबर				नवम्बर	
1.	संजना	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	पावल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	पारस देवांगन	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P
4.	केशव साहू	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	जगेंद्र कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6.	निशा साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	चन्द्रहास	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8.	पुष्पा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9.	शबाना राजपूत	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	वलीग राज	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11.	जयश्री ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	रीजेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13.	उमेश कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	राहुल कोण्डे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	पूजा कोण्डे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.	सिया देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रुच कुमारी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	विजय देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19.	अंजली	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	इंशा साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

- सितम्बर - 4, 11, 25  
अक्टूबर - 9, 16, 30  
नवम्बर - 6, 13, 20  
दिसम्बर - 4, 11  
जनवरी - 8, 15, 22, 29  
फरवरी - 5, 12, 19, 26

प्री लफाह - सोमवार

Teacher's name

1. डॉ. शैलेंद्र सिंह
2. डॉ. हिन्दू ठाकुर

कक्षा - B.A. 1st sem / II sem

विद्यार्थी	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलै	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Slow learner

Page No.  
Date

विषय -

क्र.	दस्तावेज/पत्रिका का नाम	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
1.	कुशल वर्मा	P	P	P
2.	द्विनेश्वरी वर्मा	P	P	P
3.	शक्ति का सिद्धा	P	P	P
4.	मानस झांगल	P	P	P
5.	आमिनी साहू	P	A	P
6.	भाग्य पलाद	P	P	P
7.	शिवनेश्वरी	A	P	P
8.	नोमिन	P	P	P
9.	प्रिंसिपल कर्मा	P	P	P
10.	भूमिका	P	P	P
11.	आली प्रीवास	P	P	P
12.	महिमा	P	P	P
13.	डामेश्वर	P	P	P
14.	रवोमेश-धरद्वंशी	P	P	P
15.	मानसी	P	P	P
16.	कृष्णकाव्य	P	P	P
17.	मोहेश्वरी	P	P	P
18.	दामिनी	P	P	P
19.	एकता साहू	P	P	P
20.	चींदनी	P	P	P
21.	अंकुश	P	P	P
22.	अदिति गायन	P	P	P

प्रति सप्ताह - 5 गलतियाँ

- सितम्बर - 5, 12, 26
- अक्टूबर - 3, 10, 17, 31
- नवम्बर - 7, 21, 28
- दिसम्बर - 5, 12, 19
- जनवरी - 9, 16, 23, 30
- फरवरी - 6, 13, 20
- मार्च - 5, 12, 19, 26

सत्र - 2023-24

कक्षा - B.A. III sem.

Page No.  
Date

विषय ( ) जनवरी फरवरी मार्च

क्र.	दस्तावेज/पत्रिका का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	कुशल वर्मा	P	P	P
2.	द्विनेश्वरी वर्मा	P	P	P
3.	शक्ति का सिद्धा	P	P	P
4.	मानस झांगल	P	P	P
5.	आमिनी साहू	P	P	P
6.	भाग्य पलाद	P	P	P
7.	शिवनेश्वरी	P	P	P
8.	नोमिन	P	P	P
9.	प्रिंसिपल कर्मा	P	P	P
10.	भूमिका	P	P	P
11.	आली प्रीवास	P	P	P
12.	महिमा	P	P	P
13.	डामेश्वर	P	P	P
14.	रवोमेश-धरद्वंशी	P	P	P
15.	मानसी	P	P	P
16.	कृष्णकाव्य	P	P	P
17.	मोहेश्वरी	P	P	P
18.	दामिनी	P	P	P
19.	एकता साहू	P	P	P
20.	चींदनी	P	P	P
21.	अंकुश	P	P	P
22.	अदिति गायन	P	P	P

Teacher's name

1. डॉ. अजय शर्मा - [Signature]
2. डॉ. हेमलता साहू - [Signature]





कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

### सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई गई



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. के.एल.टान्डेकर ने

कहा कि सरदार पटेल कड़े अनुशासन के पक्षपाती थे। वे अनुशासनहीनता के कार्यों को सहन नहीं कर सकते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उपर से वे रूखे निष्ठुर और अभिमानी से लगते थे। परन्तु भीतर से वे सरल स्वभाव के थे। विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि सरदार पटेल दृढ़ संकल्प, के धनी थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वे घबराते नहीं थे। उनमें दल संगठित करने की अद्भूत क्षमता थी। वे जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देते थे। उन्होंने चर्चिल को जवाब देते हुए कहा “आप लोग यह सोचकर बोले कि आप स्वतंत्र भारत से बातचीत कर रहे हैं।”

हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर ने कहा – 1927 में वारडोली सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। इसी समय जनता ने उनको सरदार की उपाधि से सुशोधित किया और उनकी गणना भारत के प्रमुख नेताओं में होने लगी। कार्यक्रम का संचालन एम.ए.पूर्व की छात्र प्रगति भूआर्य ने किया।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## इतिहास विभाग में मनाया गया सुभाषचंद्र बोस जयंती



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा सुभाषचंद्र बोस जयंती मनाई गई। प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर मुख्य वक्ता श्री जितेन्द्र साखरे सहा.प्राध्यापक इतिहास, रानी रश्मि देवी महाविद्यालय, खैरागढ़, विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह द्वारा सुभाषचंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि वीर सावरकर ने सुभाषचंद्र बोस की क्षमता को पहचाना तथा छोटै-छोटे आंदोलनों में शक्ति व्यय करने के स्थान पर कोई ठोस कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने सुभाषचंद्र बोस को राय दी कि उन्हें देश के बाहर जाकर अन्य देशों से सहायता लेकर भारत को स्वतंत्रता के प्रयत्न करने चाहिए। सुभाषचंद्र बोस ने रूस, इटली, जर्मनी आदि देशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। जर्मनी सरकार से मिलने के बाद उन्होंने फ्री इंडिया सेन्टर की स्थापना की। प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर ने कहा कि 1923 में चितरंजन दास द्वारा सुभाष को स्वराज दल का महामंत्री का कार्य सौंपा गया। उनके प्रयासों से कलकत्ता नगर निगम के चुनावों में स्वराज दल की सफलता मिली। उन्होंने कलकत्ता की सड़कों के नाम अंग्रेजी के नाम से बदल कर भारतीय महापुरुषों के नाम कर दिए। गांधीजी से वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर “फारवर्ड.ब्लाक” नामक दल बनाया। मुख्य वक्ता श्री जितेन्द्र साखरे ने कहा कि सुभाष बचपन से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। सुभाषचंद्र बोस पर विवेकानंद का काफी प्रभाव था। उन्होंने 1920 में आई.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की किंतु अंग्रेजी शासन के अधीन नौकरी करना स्वीकार

नहीं किया। 22 सितम्बर 1944 को सुभाष बोस ने “शहीद दिवस” मनाया तथा घोषणा की “हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा” दूर्भाग्यवश उनका यह स्वप्न पूरा पूरा न हो सका। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाषचंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना की जिसे जापान, जर्मनी, चीन, इटली, कोरिया, फिलिपिंग आदि देशों ने मान्यता दी थी कार्यक्रम का संचालन एम.ए.पूर्व की छात्रा प्रगति नोन्हारे ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. अजय शर्मा द्वारा किया गया।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎: & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## इतिहास विभाग में इतिहास दर्शन पर व्याख्यान



GPS Map Camera

Rajnandgaon, Chhattisgarh, India

Allahabad Bank, Rajnandgaon, Avana, Near Hotel, Rajnandgaon, Chhattisgarh 491441

Allahabad Bank, Avana, near Hotel, Rajnandgaon, Chhattisgarh 491441, India

Lat 21.094698°

Long 81.028158°

12/12/23 01:05 PM GMT +05:30

अन्यथा मार्क्स का पता केवल सामाजिक विज्ञान तक ही सीमित रहता। परिणाम स्वरूप इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतित कालीन घटना के निहित मानसिक प्रक्रिया अथवा विचार को वर्तमान और भविष्य में प्रतिरोधित करना मात्र होता है।

कार्यक्रम का संचालन प्रो.हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर तथा आभार डॉ.हेमलता साहू द्वारा किया गया।



## छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में शहीद वीरनारायण सिंह जयंती मनाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर ने कहा कि वीरनारायण सिंह छत्तीसगढ़ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नारायण सिंह का जन्म 1795 में विझवार जनजाति में हुआ था। 1856 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अल्पवर्षा के कारण भयंकर अकाल पड़ा तब वीरनारायण

सिंह ने ब्रिटीश कम्पनी को कर देने में समर्थता व्यक्त की और सहायता का निवेश किया। संकट की इस घड़ी में कुछ व्यापारियों ने अनाज को दबाकर रखा था। कस्डोल के एक व्यापारी माखन ने अपने गोदाम में अनाज जमा कर रखा था, उसे अपने कब्जे में कर वीरनारायण सिंह ने किसानों को बांट दिया था। व्यापारी की शिकायत पर नारायण सिंह पर लूटमार और डकैती का आरोप लगाकर 24 अक्टूबर 1856 को रायपुर जेल में डाल दिया गया था। विभागध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि 1857 का विद्रोह जब प्रारंभ हुआ उसकी हलचल छत्तीसगढ़ में भी हुआ। 28 अगस्त 1857 को नारायण सिंह जेल से भागने में सफल हो गये। नारायण सिंह जानते थे कि ब्रिटीश सरकार उन पर कार्यवाही करेगी।

अतः उन्होंने 500 सैनिकों की सेना संगठित की थी। सोनाखान पर आक्रमण की जिम्मेदारी कर्नल स्मित को सौंपी गई। नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर इलियेट ने लिखा था :- मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को प्रस्तुत किया गया और उस पर 1857 की अधिनियम की धारा 6 एक्ट 14 के अंतर्गत उस पर अभियोग लगाया गया। मैंने उसे फांसी की सजा सुनाई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रोफेसर होरेन्द्र बहादुर ठाकुर ने कहा कि नारायण सिंह के रूप में अंग्रेजों के समक्ष चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज इस बात से लगता है कि नारायण सिंह को फांसी दिए जाने के बाद सरकार ने उन जमींदारों को पुरस्कार किया, जिन्होंने नारायण सिंह के विद्रोह के दमन में उनकी मदद की इस अवसर पर प्राचार्य डॉ.टांडेकर द्वारा वीरनारायण सिंह से संबंधित प्रश्न पूछा गया और विभाग के उत्तर देने वाले विद्यार्थियों वैशल्या, पेमिन धारगवे, वर्षा साहू, नेमचंद-साहिल रावटे को पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर डॉ.अजय शर्मा, डॉ.हेमलता साहू तथा एम.ए.के विद्यार्थी उपस्थित थे।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

### इतिहास विभाग में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन आयोजित



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रारंभ में प्राचार्य डॉ.के.एल. टांडेकर द्वारा अभिभावकों को महाविद्यालय से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया तथा उन्होंने पालकों को कहा कि आप हमेशा अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें तथा महाविद्यालय के विकास से संबंधित अगर कोई सुझाव प्रदान करते हैं, तो अवश्य उस पर अमल किया जाएगा।

विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने अभिभावकों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी साथ ही विभाग द्वारा वर्ष में राष्ट्रीय भ्रमण द्वारा विद्यार्थियों को होने वाले लाभों के बारे में बताया। महाविद्यालय द्वारा संचालित विवेकानंद कोष की भी जानकारी प्रदान की गई। विभाग में समय-समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे उनके अनुभव का लाभ विद्यार्थी प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त सभी अभिभावकों ने महाविद्यालय तथा विभाग से मिलने वाली सुविधाओं पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की। इस अवसर पर अभिभावकगण श्री पुरुषोत्तम तिवारी, श्री गौतमराय यादव, श्री सच्चिदानंद सोनकर, श्री चैतराम साहू, श्रीमती सुशीला बाई साहू, श्रीमती रहमत बेग, प्रतिभा देवांगन, श्री निखिल दास वैष्णव, श्रीमती हेमबाई साहू, श्री भोजराम साहू तथा अन्य अभिभावक उपस्थित रहे। संचालन प्रो. हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर तथा आभार हेमलता साहू द्वारा किया गया।

(डॉ. के.एल.टांडेकर)

प्राचार्य

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय  
राजनांदगांव (छ.ग.)



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

नई राष्ट्रीय शिक्षानीति का उद्देश्य बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है – डॉ.शैलेन्द्र सिंह



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा प्राचार्य डॉ.के.एल. टाण्डेकर के मार्गदर्शन में नई राष्ट्रीय शिक्षानीति के अंतर्गत विस्तार गतिविधि हेतु ठाकुर प्यारेलाल सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इतिहास विभाग

के विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षानीति का उद्देश्य बहुविषयक और समग्र शिक्षा है। नई शिक्षानीति के अंतर्गत 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षानीति के अंतर्गत कला विज्ञान का व्यावसायिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के नीचे कोई औपचारिक अंतर नहीं होगा। विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुरूप विषयों का चुनाव कर सकते हैं। विज्ञान का विद्यार्थी भी इतिहास विषय को जी.ई.विषय के रूप में चुन सकती है। इंटरशिप को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। विस्तार गतिविधि के अंतर्गत प्रो.हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर द्वारा इतिहास अध्ययन के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि इतिहास से बुद्धिमतापूर्ण देशभक्ति विकसित करना, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का अध्ययन, प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से वर्तमान पीढ़ी को अवगत करना है। प्यारेलाल स्कूल के प्राचार्य श्री भूषण साव ने इस कार्य की प्रशंसा की तथा कहा कि इससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और जब वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे तो वे नई शिक्षा नीति के सभी पहलुओं से परिचित होंगे। इस अवसर पर एम.ए.के विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे तथा सही जवाब देने पर उन्हें पुरस्कृत किया।

छात्र/छात्राओं की व्यक्तिगत एवं विषय  
संबंधी समस्या निवारण की जानकारी

सत्र - 2023-24

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

क्र.	छात्र/छात्राओं का नाम	कक्षा	समस्या	दिनांक	समाधान	प्राध्यापक का नाम	विद्यार्थी का हस्ताक्षर	प्राध्यापक का हस्ताक्षर	विद्यार्थी का मोबाइल नं०
1.	अर्चना कोरवी	B.A. III Sem.	एडमिशन से Related समस्या थी/ documents से संबंधित	19/7/2023	विद्यार्थी को उचित मार्गदर्शन एवं सलाह	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	Anuma	[Signature]	7489185889
2.	गंगा साहू	M.A. I Sem.	एडमिशन फीस न देब पाने से संबंधित शार्विक समस्या था रही थी।	22/7/2023	महाविद्यालय के विवेकानन्द कोष से महाभ्रत संबंधी छात्रवृत्ति पदान की गई।	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	गंगा	[Signature]	8602130826
3.	मोहम्मद जैद	B.A. III Sem.	टाइम टेबल से संबंधित समस्या/र का (ही थी) शिका	27/7/2023	टाइम टेबल दिखाकर/समाझाकर, समस्या/शिका का समाधान किया गया।	जे. हिलेड लहडुकर डंडुकर	[Signature]	[Signature]	8085376591
4.	मृणाली	M.A. part	एडमिशन फीस हेतु शार्विक समस्या	17/08/2023	विभाग, शार्विक सहायता और विवेकानन्द फंड के डारा सहायता पदान करके एडमिशन दिया गया।	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	मृणाली	[Signature]	9685326365
5.	पैशाखा खाई	M.A. II sem.	NET/SET संबंधी कितना से Related समस्या बताई गई	12/12/2023	विभाग में उपलब्ध books पदान करके समस्या का समाधान किया गया।	हेमलता साहू	[Signature]	[Signature]	6266554784
6.									
7.									
8.									

[Signature]  
Dr. SHALENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Durgam P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)

**इतिहास विभागः**  
**सत्र-2023-2024**  
**विभागीय अकादमिक कैलेंडर**

क्र.	कार्यक्रम/गतिविधियां	प्रस्तावित तिथि
1.	विभागीय बैठक	जुलाई प्रथम सप्ताह
2.	अगस्त क्रांति	8 अगस्त
3.	पटेल जयंती	31 अक्टूबर
4.	शहीद वीर नारायण जयंती	10 दिसंबर
5.	शिक्षक अभिभावक सम्मेलन	जनवरी
6.	नेताजी सुभाष चंद्र जयंती	23 जनवरी
7.	नेट स्लेट हेतु कक्षाएं	जनवरी एवं फरवरी
8.	एल्यूमिनी' सम्मेलन	फरवरी प्रथम सप्ताह
9.	ऐतिहासिक भ्रमण क्षेत्रीय	फरवरी प्रथम सप्ताह
10.	राष्ट्रीय भ्रमण	फरवरी अंतिम सप्ताह

इसके अतिरिक्त समय अनुकूल शैक्षणिक एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विभिन्न व्याख्यान का आयोजन

Principal  
Govt. Digvijay College  
Rajnandgaon (C.G.)

*Singh*  
Dr. SHAILENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Digvijay P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)



क्र.	क्षेत्र/धारा का नाम	सितम्बर				अक्टूबर				नवम्बर				दिसम्बर			
		Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	
1.	चंदन यादव	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
2.	रोमेश सेन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
3.	दीक्षा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
4.	विक्रम कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
5.	एलविश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
6.	हर्षा यादव	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
7.	हरीश कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
8.	बिलेश्वरी सिंघा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
9.	शिवेन्द्र कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
10.	मुस्कान वंजारे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
11.	शोशनी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
12.	प्रमोद सिंघा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
13.	रुग्हा प्रधान	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
14.	विजय भाकंडे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
15.	रामेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
16.	शिवम कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
17.	धनेश्वर साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
18.	शैल राज डी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
19.	शोशनी राजपूत	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
20.	तमन्ना	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
21.	निशा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		

पत्र - शनिवार

सितम्बर - 9, 16, 23, 30  
 अक्टूबर - 7, 14, 21, 28  
 नवम्बर - 4, 18, 25  
 दिसम्बर - 2, 9, 16, 23, 30

Teacher's Name

1. डॉ. शिवेन्द्र सिंह - [Signature]
2. प्रो. शिवेन्द्र बहादुर - [Signature]

Dr. SHAILENDRA SINGH  
 Department of History  
 Govt. Digvijay P.G. College  
 Rajnandgaon (C.G.)

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	सितम्बर				अक्टूबर			
		Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All
1.	अर्चना कोठारी	P	P	P	A	P	P	P	P
2.	मालती शादव	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	जाकाश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विवेक सिन्हा	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	मधु राजपूत	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	पाशेल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	जाकाश कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P
8.	एजलीना तिवारी	P	P	P	P	P	P	A	P
9.	मोहम्मद जैद के	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	समीर साहू	A	P	P	P	P	P	P	P
11.	इंकिता चन्डाकर	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	एकता सार्वी	P	A	P	P	P	P	P	P
13.	धनराज	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	कृष्ण कान्त साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	मैधा वासुदेव	A	P	P	A	P	P	P	P
16.	रितेश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रिदिक देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	उमेश शादव	P	A	P	P	P	P	P	P
19.	पृथ्वी राय	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	मेधा	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	मुनेश ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	अभिनेह	P	P	P	P	A	P	P	P


प्रति सप्ताह - शुक्रवार

- सितम्बर - 1, 8, 15, 22
- अक्टूबर - 6, 13, 20, 27
- नवम्बर - 3, 17, 24
- दिसम्बर - 1, 8, 15

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	नवम्बर				दिसम्बर			
		Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All
1.	अर्चना कोठारी	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	मालती शादव	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	जाकाश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विवेक सिन्हा	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	मधु राजपूत	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	पाशेल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	जाकाश कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P
8.	एजलीना तिवारी	P	P	P	P	P	P	A	P
9.	मोहम्मद जैद के	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	समीर साहू	A	P	P	P	P	P	P	P
11.	इंकिता चन्डाकर	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	एकता सार्वी	P	A	P	P	P	P	P	P
13.	धनराज	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	कृष्ण कान्त साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	मैधा वासुदेव	A	P	P	A	P	P	P	P
16.	रितेश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रिदिक देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	उमेश शादव	P	A	P	P	P	P	P	P
19.	पृथ्वी राय	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	मेधा	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	मुनेश ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	अभिनेह	P	P	P	P	A	P	P	P

Teacher's Name

- डॉ. अजय शर्मा
- हमेलना साहू



विषय -

क्र.	धारा/धारा का नाम	जनवरी				फरवरी			
		Topic	Alt	Topic	Alt	Topic	Alt	Topic	Alt
1	श्रीलक्ष्मी	P	P	P	P	P	P	P	P
2	मुष्पा देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
3	मीमांसी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4	मीमांसी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
5	नेहा चादव	P	P	P	P	P	P	P	P
6	लीलि चादव	A	P	P	P	P	P	P	P
7		P	P	P	P	P	P	P	P
8		P	P	P	P	P	P	P	P
9		P	P	P	P	P	P	P	P
10		P	P	P	P	P	P	P	P
11		P	P	P	P	P	P	P	P
12		P	P	P	P	P	P	P	P
13		P	P	P	P	P	P	P	P
14		P	P	P	P	P	P	P	P
15		P	P	P	P	P	P	P	P
16		P	P	P	P	P	P	P	P
17		P	P	P	P	P	P	P	P
18		P	P	P	P	P	P	P	P
19		P	P	P	P	P	P	P	P
20		P	P	P	P	P	P	P	P
21		P	P	P	P	P	P	P	P

जनवरी - 6, 13, 20, 27  
फरवरी - 3, 10, 17, 24  
मार्च - 2, 9, 16, 23, 30

उत्ति सप्ताह - शनिवार

B.A. II semester

मार्च

क्र.	धारा/धारा का नाम	मार्च			
		Topic	Alt	Topic	Alt
1		P	P	P	P
2		P	P	P	P
3		P	P	P	P
4		P	P	P	P
5		P	P	P	P
6		P	P	P	P
7		P	P	P	P
8		P	P	P	P
9		P	P	P	P
10		P	P	P	P
11		P	P	P	P
12		P	P	P	P
13		P	P	P	P
14		P	P	P	P
15		P	P	P	P
16		P	P	P	P
17		P	P	P	P
18		P	P	P	P
19		P	P	P	P
20		P	P	P	P
21		P	P	P	P

Teacher's name

- 1) डॉ. शैलेंद्र सिंह
- 2) प्रो. विवेक कानुन शर्मा

विषय -

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
1.	संजना	P	P	P
2.	पावल साहू	P	P	P
3.	पारस देवांगन	P	P	A
4.	केशव साहू	A	P	P
5.	जगेंद्र कुमार	P	P	P
6.	निशा साहू	P	P	P
7.	चन्द्रहास	P	P	P
8.	पुष्पा	P	P	P
9.	शबाना राजपूत	P	P	P
10.	वनीता राज	P	P	P
11.	जयश्री ठाकुर	P	P	P
12.	रीजेश्वरी	P	P	P
13.	अमेश कुमार	P	P	P
14.	राहुल कागडे	P	P	P
15.	पूजा कर्माकर	P	P	P
16.	सिया देवांगन	P	P	P
17.	रुच कुमारी	P	P	P
18.	विजय देवांगन	P	P	P
19.	अंजली	P	P	P
20.	इंशा साहू	P	P	P

- सितम्बर - 4, 11, 25  
अक्टूबर - 9, 16, 30  
नवम्बर - 6, 13, 20  
दिसम्बर - 4, 11  
जनवरी - 8, 15, 22, 29  
फरवरी - 5, 12, 19, 26

प्रति सप्ताह - शोमवार

कक्षा - B.A. 1st sem / II sem

दिसम्बर जनवरी फरवरी

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी
1.	संजना	P	P	P
2.	पावल साहू	P	P	P
3.	पारस देवांगन	P	P	P
4.	केशव साहू	P	P	P
5.	जगेंद्र कुमार	P	P	P
6.	निशा साहू	P	P	P
7.	चन्द्रहास	P	P	P
8.	पुष्पा	P	P	P
9.	शबाना राजपूत	P	P	P
10.	वनीता राज	P	P	P
11.	जयश्री ठाकुर	P	P	P
12.	रीजेश्वरी	P	P	P
13.	अमेश कुमार	P	P	P
14.	राहुल कागडे	P	P	P
15.	पूजा कर्माकर	P	P	P
16.	सिया देवांगन	P	P	P
17.	रुच कुमारी	P	P	P
18.	विजय देवांगन	P	P	P
19.	अंजली	P	P	P
20.	इंशा साहू	P	P	P

Teacher's name

- डॉ. शैलेंद्र सिंह
- डॉ. हिन्दू ठाकुर

Slow learner

Page No.  
Date

विषय -

क्र.	दस्तावेज/पत्रिका का नाम	सितम्बर			अक्टूबर			नवम्बर		
		P	P	P	P	P	P	P	P	P
1.	कुशल पत्र	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	द्विदेशी पत्र	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	शक्ति का सिद्धांत	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	मानस का विकास	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	आत्मिकी साहू	P	A	P	A	P	P	P	P	P
6.	आयु पत्र	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	द्विदेशी	A	P	P	P	P	P	P	A	P
8.	नोमिन	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9.	ब्रिजिज का	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	भूमिका	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11.	आली श्रीवास	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	महिमा	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13.	उमेश्वर	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	रवोमेश-धरद्वारा	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	मानसी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.	कृष्णकाव्य	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	मोहेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	दामिनी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19.	एकता साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	चींदनी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	अंकुश	P	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	उदितारायण	P	P	P	P	P	P	P	P	P

प्रति सप्ताह - 5 गलतियाँ

- सितम्बर - 5, 12, 26
- अक्टूबर - 3, 10, 17, 31
- नवम्बर - 7, 21, 28
- दिसम्बर - 5, 12, 19
- जनवरी - 9, 16, 23, 30
- फरवरी - 6, 13, 20
- मार्च - 5, 12, 19, 26

दिनांक - 2023-24

कक्षा - B.A. III sem.

Page No.  
Date

विषय - जनवरी फरवरी मार्च

क्र.	दस्तावेज/पत्रिका का नाम	जनवरी			फरवरी			मार्च		
		P	P	P	P	P	P	P	P	P
1.	कुशल पत्र	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	द्विदेशी पत्र	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	शक्ति का सिद्धांत	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	मानस का विकास	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	आत्मिकी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6.	आयु पत्र	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	द्विदेशी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8.	नोमिन	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9.	ब्रिजिज का	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	भूमिका	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11.	आली श्रीवास	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	महिमा	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13.	उमेश्वर	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	रवोमेश-धरद्वारा	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	मानसी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.	कृष्णकाव्य	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	मोहेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	दामिनी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19.	एकता साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	चींदनी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	अंकुश	P	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	उदितारायण	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Teacher's name

1. डॉ. अजय शर्मा - [Signature]
2. डॉ. हेमलता साहू - [Signature]



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई गई



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. के.एल.टान्डेकर ने

कहा कि सरदार पटेल कड़े अनुशासन के पक्षपाती थे। वे अनुशासनहीनता के कार्यों को सहन नहीं कर सकते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उपर से वे रूखे निष्ठुर और अभिमानी से लगते थे। परन्तु भीतर से वे सरल स्वभाव के थे। विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि सरदार पटेल दृढ़ संकल्प, के धनी थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वे घबराते नहीं थे। उनमें दल संगठित करने की अद्भूत क्षमता थी। वे जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देते थे। उन्होंने चर्चिल को जवाब देते हुए कहा “आप लोग यह सोचकर बोले कि आप स्वतंत्र भारत से बातचीत कर रहे हैं।”

हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर ने कहा – 1927 में वारडोली सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। इसी समय जनता ने उनको सरदार की उपाधि से सुशोधित किया और उनकी गणना भारत के प्रमुख नेताओं में होने लगी। कार्यक्रम का संचालन एम.ए.पूर्व की छात्र प्रगति भूआर्य ने किया।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## इतिहास विभाग में मनाया गया सुभाषचंद्र बोस जयंती



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा सुभाषचंद्र बोस जयंती मनाई गई। प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर मुख्य वक्ता श्री जितेन्द्र साखरे सहा.प्राध्यापक इतिहास, रानी रश्मि देवी महाविद्यालय, खैरागढ़, विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह द्वारा सुभाषचंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि वीर सावरकर ने सुभाषचंद्र बोस की क्षमता को पहचाना तथा छोटै-छोटे आंदोलनों में शक्ति व्यय करने के स्थान पर कोई ठोस कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने सुभाषचंद्र बोस को राय दी कि उन्हें देश के बाहर जाकर अन्य देशों से सहायता लेकर भारत को स्वतंत्रता के प्रयत्न करने चाहिए। सुभाषचंद्र बोस ने रूस, इटली, जर्मनी आदि देशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। जर्मनी सरकार से मिलने के बाद उन्होंने फ्री इंडिया सेन्टर की स्थापना की। प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर ने कहा कि 1923 में चितरंजन दास द्वारा सुभाष को स्वराज दल का महामंत्री का कार्य सौंपा गया। उनके प्रयासों से कलकत्ता नगर निगम के चुनावों में स्वराज दल की सफलता मिली। उन्होंने कलकत्ता की सड़कों के नाम अंग्रेजी के नाम से बदल कर भारतीय महापुरुषों के नाम कर दिए। गांधीजी से वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर “फारवर्ड.ब्लॉक” नामक दल बनाया। मुख्य वक्ता श्री जितेन्द्र साखरे ने कहा कि सुभाष बचपन से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। सुभाषचंद्र बोस पर विवेकानंद का काफी प्रभाव था। उन्होंने 1920 में आई.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की किंतु अंग्रेजी शासन के अधीन नौकरी करना स्वीकार

नहीं किया। 22 सितम्बर 1944 को सुभाष बोस ने “शहीद दिवस” मनाया तथा घोषणा की “हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा” दूर्भाग्यवश उनका यह स्वप्न पूरा पूरा न हो सका। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाषचंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना की जिसे जापान, जर्मनी, चीन, इटली, कोरिया, फिलिपिंग आदि देशों ने मान्यता दी थी कार्यक्रम का संचालन एम.ए.पूर्व की छात्रा प्रगति नोन्हारे ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. अजय शर्मा द्वारा किया गया।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎: & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## इतिहास विभाग में इतिहास दर्शन पर व्याख्यान



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में इतिहास दर्शन विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रारंभ में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने व्याख्यान की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और कहा कि इतिहास दर्शन का उद्देश्य स्वयं का चिंतन विश्व इतिहास तथा इतिहास के सामान्य नियमों से है। इसे इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जा सकती है। मुख्यवक्ता डॉ.आशा चौधरी शासकीय नेहरू महाविद्यालय डोंगरगढ़ ने इतिहास दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इतिहास घटनाओं में से एक घटना मात्र को देखता है, जबकि दर्शन इतिहास के प्रामाण्य अर्थ और वास्तविकता को निश्चित करने का दावा करता है। इतिहास के प्रामाण्य का प्रश्न नहीं उठता। जो सफल होता है उसी का इतिहास होता है। इतिहास में मार्क्स का महत्व लेनिन और स्टालिन के कारण है।

अन्यथा मार्क्स का पता केवल सामाजिक विज्ञान तक ही सीमित रहता। परिणाम स्वरूप इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतित कालीन घटना के निहित मानसिक प्रक्रिया अथवा विचार को वर्तमान और भविष्य में प्रतिरोधित करना मात्र होता है।

कार्यक्रम का संचालन प्रो.हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर तथा आभार डॉ.हेमलता साहू द्वारा किया गया।





## छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में शहीद वीरनारायण सिंह जयंती मनाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर ने कहा कि वीरनारायण सिंह छत्तीसगढ़ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नारायण सिंह का जन्म 1795 में विझवार जनजाति में हुआ था। 1856 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अल्पवर्षा के कारण भयंकर अकाल पड़ा तब वीरनारायण

सिंह ने ब्रिटीश कम्पनी को कर देने में समर्थता व्यक्त की और सहायता का निवेश किया। संकट की इस घड़ी में कुछ व्यापारियों ने अनाज को दबाकर रखा था। कस्डोल के एक व्यापारी माखन ने अपने गोदाम में अनाज जमा कर रखा था, उसे अपने कब्जे में कर वीरनारायण सिंह ने किसानों को बांट दिया था। व्यापारी की शिकायत पर नारायण सिंह पर लूटमार और डकैती का आरोप लगाकर 24 अक्टूबर 1856 को रायपुर जेल में डाल दिया गया था। विभागध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि 1857 का विद्रोह जब प्रारंभ हुआ उसकी हलचल छत्तीसगढ़ में भी हुआ। 28 अगस्त 1857 को नारायण सिंह जेल से भागने में सफल हो गये। नारायण सिंह जानते थे कि ब्रिटीश सरकार उन पर कार्यवाही करेगी।

अतः उन्होंने 500 सैनिकों की सेना संगठित की थी। सोनाखान पर आक्रमण की जिम्मेदारी कर्नल स्मित को सौंपी गई। नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर इलियेट ने लिखा था :- मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को प्रस्तुत किया गया और उस पर 1857 की अधिनियम की धारा 6 एक्ट 14 के अंतर्गत उस पर अभियोग लगाया गया। मैंने उसे फांसी की सजा सुनाई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रोफेसर होरेन्द्र बहादुर ठाकुर ने कहा कि नारायण सिंह के रूप में अंग्रेजों के समक्ष चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज इस बात से लगता है कि नारायण सिंह को फांसी दिए जाने के बाद सरकार ने उन जमींदारों को पुरस्कार किया, जिन्होंने नारायण सिंह के विद्रोह के दमन में उनकी मदद की इस अवसर पर प्राचार्य डॉ.टांडेकर द्वारा वीरनारायण सिंह से संबंधित प्रश्न पूछा गया और विभाग के उत्तर देने वाले विद्यार्थियों वैशल्या, पेमिन धारगवे, वर्षा साहू, नेमचंद-साहिल रावटे को पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर डॉ.अजय शर्मा, डॉ.हेमलता साहू तथा एम.ए.के विद्यार्थी उपस्थित थे।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

### इतिहास विभाग में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन आयोजित



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रारंभ में प्राचार्य डॉ.के.एल. टांडेकर द्वारा अभिभावकों को महाविद्यालय से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया तथा उन्होंने पालकों को कहा कि आप हमेशा अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें तथा महाविद्यालय के विकास से संबंधित अगर कोई सुझाव प्रदान करते हैं, तो अवश्य उस पर अमल किया जाएगा।

विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने अभिभावकों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी साथ ही विभाग द्वारा वर्ष में राष्ट्रीय भ्रमण द्वारा विद्यार्थियों को होने वाले लाभों के बारे में बताया। महाविद्यालय द्वारा संचालित विवेकानंद कोष की भी जानकारी प्रदान की गई। विभाग में समय-समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे उनके अनुभव का लाभ विद्यार्थी प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त सभी अभिभावकों ने महाविद्यालय तथा विभाग से मिलने वाली सुविधाओं पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की। इस अवसर पर अभिभावकगण श्री पुरुषोत्तम तिवारी, श्री गौतमराय यादव, श्री सच्चिदानंद सोनकर, श्री चैतराम साहू, श्रीमती सुशीला बाई साहू, श्रीमती रहमत बेग, प्रतिभा देवांगन, श्री निखिल दास वैष्णव, श्रीमती हेमबाई साहू, श्री भोजराम साहू तथा अन्य अभिभावक उपस्थित रहे। संचालन प्रो. हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर तथा आभार हेमलता साहू द्वारा किया गया।

(डॉ. के.एल.टांडेकर)

प्राचार्य

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय  
राजनांदगांव (छ.ग.)



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

नई राष्ट्रीय शिक्षानीति का उद्देश्य बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है – डॉ.शैलेन्द्र सिंह



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा प्राचार्य डॉ.के.एल. टाण्डेकर के मार्गदर्शन में नई राष्ट्रीय शिक्षानीति के अंतर्गत विस्तार गतिविधि हेतु ठाकुर प्यारेलाल सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इतिहास विभाग

के विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षानीति का उद्देश्य बहुविषयक और समग्र शिक्षा है। नई शिक्षानीति के अंतर्गत 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षानीति के अंतर्गत कला विज्ञान का व्यावसायिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के नीचे कोई औपचारिक अंतर नहीं होगा। विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुरूप विषयों का चुनाव कर सकते हैं। विज्ञान का विद्यार्थी भी इतिहास विषय को जी.ई.विषय के रूप में चुन सकती है। इंटरशिप को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। विस्तार गतिविधि के अंतर्गत प्रो.हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर द्वारा इतिहास अध्ययन के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि इतिहास से बुद्धिमतापूर्ण देशभक्ति विकसित करना, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का अध्ययन, प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से वर्तमान पीढ़ी को अवगत करना है। प्यारेलाल स्कूल के प्राचार्य श्री भूषण साव ने इस कार्य की प्रशंसा की तथा कहा कि इससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और जब वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे तो वे नई शिक्षा नीति के सभी पहलुओं से परिचित होंगे। इस अवसर पर एम.ए.के विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे तथा सही जवाब देने पर उन्हें पुरस्कृत किया।

छात्र/छात्राओं की व्यक्तिगत एवं विषय  
संबंधी समस्या निवारण की जानकारी

सत्र - 2023-24

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

क्र.	छात्र/छात्राओं का नाम	कक्षा	समस्या	दिनांक	समाधान	प्राध्यापक का नाम	विद्यार्थी का हस्ताक्षर	प्राध्यापक का हस्ताक्षर	विद्यार्थी का मोबाइल नं०
1.	अर्चना कोरवी	B.A. III Sem.	एडमिशन से Related समस्या थी/ documents से संबंधित	19/7/2023	विद्यार्थी को उचित मार्गदर्शन एवं सलाह	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	Anuma	[Signature]	7489185889
2.	गंगा साहू	M.A. I Sem.	एडमिशन फीस न देब पाने से संबंधित शार्विक समस्या था रही थी।	22/7/2023	महाविद्यालय के विवेकानन्द कोष से महाभ्रत संबंधी छात्रवृत्ति पदान की गई।	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	गंगा	[Signature]	8602130826
3.	मोहम्मद जैद	B.A. III Sem.	टाइम टेबल से संबंधित समस्या/र का (ही थी) शिका	27/7/2023	टाइम टेबल दिखाकर/समाझाकर, समस्या/शिका का समाधान किया गया।	जे. हिलेड लहडुकर डडुकर	[Signature]	[Signature]	8085376591
4.	मृणाली	M.A. part	एडमिशन फीस हेतु शार्विक समस्या	17/08/2023	विभाग, शार्विक सहायता और विवेकानन्द फंड के डारा सहायता पदान करके एडमिशन दिया गया।	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	मृणाली	[Signature]	9685326365
5.	पैकाल्या साहू	M.A. II sem.	NET/SET संबंधी कितना से Related समस्या बताई गई	12/12/2023	विभाग में उपलब्ध books पदान करके समस्या का समाधान किया गया।	हेमलता साहू	[Signature]	[Signature]	6266554784
6.									
7.									
8.									

[Signature]  
Dr. SHALENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Durgam P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)

**इतिहास विभागः**  
**सत्र-2023-2024**  
**विभागीय अकादमिक कैलेंडर**

क्र.	कार्यक्रम/गतिविधियां	प्रस्तावित तिथि
1.	विभागीय बैठक	जुलाई प्रथम सप्ताह
2.	अगस्त क्रांति	8 अगस्त
3.	पटेल जयंती	31 अक्टूबर
4.	शहीद वीर नारायण जयंती	10 दिसंबर
5.	शिक्षक अभिभावक सम्मेलन	जनवरी
6.	नेताजी सुभाष चंद्र जयंती	23 जनवरी
7.	नेट स्लेट हेतु कक्षाएं	जनवरी एवं फरवरी
8.	एल्यूमिनी सम्मेलन	फरवरी प्रथम सप्ताह
9.	ऐतिहासिक भ्रमण क्षेत्रीय	फरवरी प्रथम सप्ताह
10.	राष्ट्रीय भ्रमण	फरवरी अंतिम सप्ताह

इसके अतिरिक्त समय अनुकूल शैक्षणिक एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विभिन्न व्याख्यान का आयोजन

Principal  
Govt. Digvijay College  
Rajnandgaon (C.G.)

*Singh*  
Dr. SHAILENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Digvijay P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)

क्र.	क्षेत्र/धारा का नाम	सितम्बर				अक्टूबर				नवम्बर				दिसम्बर			
		Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	
1.	चंदन यादव	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	रोमेश सेन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P
3.	दीक्षा	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विक्रम कुमार	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	A	P
5.	एलविश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	हर्षा यादव	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	हरीश कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8.	बिलेश्वरी सिंघा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A
9.	शिवेन्द्र कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	मुस्कान वंजारे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P
11.	शोशनी साहू	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	प्रमोद सिंघा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13.	रुग्हा प्रधान	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	विजय भाकंडे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	रामेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.	शिवम कुमार	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	धनेश्वर साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	शैल राज डी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19.	शोशनी राजपूत	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P
20.	तमन्ना	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P
21.	निशा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

पत्र - शनिवार

सितम्बर - 9, 16, 23, 30  
 अक्टूबर - 7, 14, 21, 28  
 नवम्बर - 4, 18, 25  
 दिसम्बर - 2, 9, 16, 23, 30

Teacher's Name

- 1) डॉ. शिवेन्द्र सिंह -
- 2) प्रो. शिवेन्द्र बहादुर -

**Dr. SHAILENDRA SINGH**  
 Department of History  
 Govt. Digvijay P.G. College  
 Rajnandgaon (C.G.)


क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	सितम्बर				अक्टूबर			
		Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All
1.	अर्चना कोठारी	P	P	P	A	P	P	P	P
2.	मालती शादव	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	जाकाश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विवेक सिन्हा	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	मधु राजपूत	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	पाशेल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	जाकाश कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P
8.	एजलीना तिवारी	P	P	P	P	P	P	A	P
9.	मोहम्मद जैद के	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	समीर साहू	A	P	P	P	P	P	P	P
11.	इंकिता चन्दाकर	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	एकता सार्वी	P	A	P	P	P	P	P	P
13.	धनराज	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	कृष्ण कान्त साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	मैघा वासुदेव	A	P	A	P	P	P	P	P
16.	रितेश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रिदिक देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	उमेश शादव	P	A	P	P	P	P	P	P
19.	पृथ्वी राय	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	मेहा	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	मुनेश ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	अभिनेह	P	P	P	P	A	P	P	P

प्रति सप्ताह - शुक्रवार

- सितम्बर - 1, 8, 15, 22
- अक्टूबर - 6, 13, 20, 27
- नवम्बर - 3, 17, 24
- दिसम्बर - 1, 8, 15

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	नवम्बर				दिसम्बर			
		Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All
1.	अर्चना कोठारी	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	मालती शादव	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	जाकाश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विवेक सिन्हा	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	मधु राजपूत	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	पाशेल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	जाकाश कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P
8.	एजलीना तिवारी	P	P	P	P	P	P	A	P
9.	मोहम्मद जैद के	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	समीर साहू	A	P	P	P	P	P	P	P
11.	इंकिता चन्दाकर	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	एकता सार्वी	P	A	P	P	P	P	P	P
13.	धनराज	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	कृष्ण कान्त साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	मैघा वासुदेव	A	P	A	P	P	P	P	P
16.	रितेश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रिदिक देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	उमेश शादव	P	A	P	P	P	P	P	P
19.	पृथ्वी राय	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	मेहा	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	मुनेश ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	अभिनेह	P	P	P	P	A	P	P	P

- Teacher's Name
- डॉ. अजय शर्मा
  - हमेला साहू



विषय -

क्र.	धारा/धारा का नाम	जनवरी				फरवरी			
		Topic	Alt	Topic	Alt	Topic	Alt	Topic	Alt
1	श्रीलक्ष्मी	P	P	P	P	P	P	P	P
2	मुष्पा देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
3	मीमांसी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4	मीमांसी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
5	नेहा चादव	P	P	P	P	P	P	P	P
6	लीलि चादव	A	P	P	P	P	P	P	P
7		P	P	P	P	P	P	P	P
8		P	P	P	P	P	P	P	P
9		P	P	P	P	P	P	P	P
10		P	P	P	P	P	P	P	P
11		P	P	P	P	P	P	P	P
12		P	P	P	P	P	P	P	P
13		P	P	P	P	P	P	P	P
14		P	P	P	P	P	P	P	P
15		P	P	A	P	P	P	P	P
16		P	P	P	P	P	P	P	P
17		P	P	P	P	P	P	P	P
18		P	P	P	P	P	P	P	P
19		P	P	P	P	P	P	P	P
20		P	P	P	P	P	P	P	P
21		P	P	P	P	P	P	P	P

जनवरी - 6, 13, 20, 27  
फरवरी - 3, 10, 17, 24  
मार्च - 2, 9, 16, 23, 30

उत्ति सप्ताह - शनिवार

B.A. II semester

मार्च

क्र.	धारा/धारा का नाम	मार्च			
		Topic	Alt	Topic	Alt
1		P	A	P	P
2		P	P	P	P
3		P	P	P	P
4		P	P	P	P
5		P	P	P	P
6		P	P	P	P
7		P	P	P	P
8		P	P	P	P
9		P	P	P	P
10		P	P	P	P
11		P	P	P	P
12		P	P	P	P
13		P	P	P	P
14		P	P	P	P
15		P	P	P	P
16		P	P	P	P
17		P	P	P	P
18		P	P	P	P
19		P	P	P	P
20		P	P	P	P
21		P	P	P	P

Teacher's name

- 1) डॉ. शैलेंद्र सिंह
- 2) प्रो. विवेक कानुन शर्मा



विषय -

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
1.	संजना	P	P	P
2.	पावल साहू	P	P	P
3.	पारस देवांगन	P	P	A
4.	केशव साहू	A	P	P
5.	जगन्नाथ कुमारी	P	P	P
6.	निशा साहू	P	P	P
7.	चन्द्रहास	P	P	P
8.	पुष्पा	P	P	P
9.	शैलजा राजपूत	P	P	P
10.	वनीता राज	P	P	P
11.	जयश्री ठाकुर	P	P	P
12.	रीजेश्वरी	P	P	P
13.	हेमेश कुमारी	P	P	P
14.	राहुल कागडे	P	P	P
15.	पूजा कागडे	P	P	P
16.	सिया देवांगन	P	P	P
17.	रुच कुमारी	P	P	P
18.	विजय देवांगन	P	P	P
19.	अंजली	P	P	P
20.	इशा साहू	P	P	P

सितम्बर - 4, 11, 25

अक्टूबर - 9, 16, 30

नवम्बर - 6, 13, 20

दिसम्बर - 4, 11

जनवरी - 8, 15, 22, 29

फरवरी - 5, 12, 19, 26

ग्री लफाह - सोमवार

कक्षा - B.A. 1st sem / II sem

दिसम्बर जनवरी फरवरी

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी
1.	संजना	P	P	P
2.	पावल साहू	P	P	P
3.	पारस देवांगन	P	P	P
4.	केशव साहू	P	P	P
5.	जगन्नाथ कुमारी	P	P	P
6.	निशा साहू	P	P	P
7.	चन्द्रहास	P	P	P
8.	पुष्पा	P	P	P
9.	शैलजा राजपूत	P	P	P
10.	वनीता राज	P	P	P
11.	जयश्री ठाकुर	P	P	P
12.	रीजेश्वरी	P	P	P
13.	हेमेश कुमारी	P	P	P
14.	राहुल कागडे	P	P	P
15.	पूजा कागडे	P	P	P
16.	सिया देवांगन	P	P	P
17.	रुच कुमारी	P	P	P
18.	विजय देवांगन	P	P	P
19.	अंजली	P	P	P
20.	इशा साहू	P	P	P

Teacher's name

1. डॉ. शैलेंद्र सिंह -
2. डॉ. हिन्दू महाडुर ठाकुर -

Slow learner

Page No.  
Date

विषय -

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
1.	कुशल वर्मा	P	P	P
2.	हितेश्वरी वर्मा	P	P	P
3.	शक्ति का सिंघ	P	P	P
4.	मानस झांगल	P	P	P
5.	आमिनी साहू	P	A	P
6.	आर्यु पल्लव	P	P	P
7.	शिवेश्वरी	A	P	P
8.	नोमिन	P	P	P
9.	प्रियंका वर्मा	P	P	P
10.	श्रुति	P	P	P
11.	आरती श्रीवास	P	P	P
12.	महिमा	P	P	P
13.	उमेश्वर	P	P	P
14.	रोमांश-धरुवेंशी	P	P	P
15.	मानसी	P	P	P
16.	कृष्णाकांत	P	P	P
17.	माहेश्वरी	P	P	P
18.	दामिनी	P	P	P
19.	एकता साहू	P	P	P
20.	वींदनी	P	P	P
21.	अंशु	P	P	P
22.	अंशु	P	P	P

प्रति सप्ताह - 5 गलतियाँ

- सितम्बर - 5, 12, 26
- अक्टूबर - 3, 10, 17, 31
- नवम्बर - 7, 21, 28
- दिसम्बर - 5, 12, 19
- जनवरी - 9, 16, 23, 30
- फरवरी - 6, 13, 20
- मार्च - 5, 12, 19, 26

सत्र - 2023-24

कक्षा - B.A. III sem.

Page No.  
Date

विषय ( ) जनवरी फरवरी मार्च

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	कुशल वर्मा	P	P	P
2.	हितेश्वरी वर्मा	P	P	P
3.	शक्ति का सिंघ	P	P	P
4.	मानस झांगल	P	P	P
5.	आमिनी साहू	P	P	P
6.	आर्यु पल्लव	P	P	P
7.	शिवेश्वरी	P	P	P
8.	नोमिन	P	P	P
9.	प्रियंका वर्मा	P	P	P
10.	श्रुति	P	P	P
11.	आरती श्रीवास	P	P	P
12.	महिमा	P	P	P
13.	उमेश्वर	P	P	P
14.	रोमांश-धरुवेंशी	P	P	P
15.	मानसी	P	P	P
16.	कृष्णाकांत	P	P	P
17.	माहेश्वरी	P	P	P
18.	दामिनी	P	P	P
19.	एकता साहू	P	P	P
20.	वींदनी	P	P	P
21.	अंशु	P	P	P
22.	अंशु	P	P	P

Teacher's name

1. डॉ. अजय शर्मा - [Signature]
2. डॉ. हेमलता साहू - [Signature]



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई गई



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. के.एल.टान्डेकर ने

कहा कि सरदार पटेल कड़े अनुशासन के पक्षपाती थे। वे अनुशासनहीनता के कार्यों को सहन नहीं कर सकते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उपर से वे रूखे निष्ठुर और अभिमानी से लगते थे। परन्तु भीतर से वे सरल स्वभाव के थे। विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि सरदार पटेल दृढ़ संकल्प, के धनी थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वे घबराते नहीं थे। उनमें दल संगठित करने की अद्भूत क्षमता थी। वे जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देते थे। उन्होंने चर्चिल को जवाब देते हुए कहा “आप लोग यह सोचकर बोले कि आप स्वतंत्र भारत से बातचीत कर रहे हैं।”

हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर ने कहा – 1927 में वारडोली सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। इसी समय जनता ने उनको सरदार की उपाधि से सुशोधित किया और उनकी गणना भारत के प्रमुख नेताओं में होने लगी। कार्यक्रम का संचालन एम.ए.पूर्व की छात्र प्रगति भूआर्य ने किया।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## इतिहास विभाग में मनाया गया सुभाषचंद्र बोस जयंती



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा सुभाषचंद्र बोस जयंती मनाई गई। प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर मुख्य वक्ता श्री जितेन्द्र साखरे सहा.प्राध्यापक इतिहास, रानी रश्मि देवी महाविद्यालय, खैरागढ़, विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह द्वारा सुभाषचंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि वीर सावरकर ने सुभाषचंद्र बोस की क्षमता को पहचाना तथा छोटै-छोटे आंदोलनों में शक्ति व्यय करने के स्थान पर कोई ठोस कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने सुभाषचंद्र बोस को राय दी कि उन्हें देश के बाहर जाकर अन्य देशों से सहायता लेकर भारत को स्वतंत्रता के प्रयत्न करने चाहिए। सुभाषचंद्र बोस ने रूस, इटली, जर्मनी आदि देशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। जर्मनी सरकार से मिलने के बाद उन्होंने फ्री इंडिया सेन्टर की स्थापना की। प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर ने कहा कि 1923 में चितरंजन दास द्वारा सुभाष को स्वराज दल का महामंत्री का कार्य सौंपा गया। उनके प्रयासों से कलकत्ता नगर निगम के चुनावों में स्वराज दल की सफलता मिली। उन्होंने कलकत्ता की सड़कों के नाम अंग्रेजी के नाम से बदल कर भारतीय महापुरुषों के नाम कर दिए। गांधीजी से वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर “फारवर्ड.ब्लाक” नामक दल बनाया। मुख्य वक्ता श्री जितेन्द्र साखरे ने कहा कि सुभाष बचपन से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। सुभाषचंद्र बोस पर विवेकानंद का काफी प्रभाव था। उन्होंने 1920 में आई.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की किंतु अंग्रेजी शासन के अधीन नौकरी करना स्वीकार

नहीं किया। 22 सितम्बर 1944 को सुभाष बोस ने “शहीद दिवस” मनाया तथा घोषणा की “हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा” दूर्भाग्यवश उनका यह स्वप्न पूरा पूरा न हो सका। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाषचंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना की जिसे जापान, जर्मनी, चीन, इटली, कोरिया, फिलिपिंग आदि देशों ने मान्यता दी थी कार्यक्रम का संचालन एम.ए.पूर्व की छात्रा प्रगति नोन्हारे ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. अजय शर्मा द्वारा किया गया।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎: & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## इतिहास विभाग में इतिहास दर्शन पर व्याख्यान



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में इतिहास दर्शन विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रारंभ में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने व्याख्यान की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और कहा कि इतिहास दर्शन का उद्देश्य स्वयं का चिंतन विश्व इतिहास तथा इतिहास के सामान्य नियमों से है। इसे इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जा सकती है। मुख्यवक्ता डॉ.आशा चौधरी शासकीय नेहरू महाविद्यालय डोंगरगढ़ ने इतिहास दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इतिहास घटनाओं में से एक घटना मात्र को देखता है, जबकि दर्शन इतिहास के प्रामाण्य अर्थ और वास्तविकता को निश्चित करने का दावा करता है। इतिहास के प्रामाण्य का प्रश्न नहीं उठता। जो सफल होता है उसी का इतिहास होता है। इतिहास में मार्क्स का महत्व लेनिन और स्टालिन के कारण है।

अन्यथा मार्क्स का पता केवल सामाजिक विज्ञान तक ही सीमित रहता। परिणाम स्वरूप इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतित कालीन घटना के निहित मानसिक प्रक्रिया अथवा विचार को वर्तमान और भविष्य में प्रतिरोधित करना मात्र होता है।

कार्यक्रम का संचालन प्रो.हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर तथा आभार डॉ.हेमलता साहू द्वारा किया गया।



## छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में शहीद वीरनारायण सिंह जयंती मनाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर ने कहा कि वीरनारायण सिंह छत्तीसगढ़ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नारायण सिंह का जन्म 1795 में विझवार जनजाति में हुआ था। 1856 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अल्पवर्षा के कारण भयंकर अकाल पड़ा तब वीरनारायण

सिंह ने ब्रिटीश कम्पनी को कर देने में समर्थता व्यक्त की और सहायता का निवेश किया। संकट की इस घड़ी में कुछ व्यापारियों ने अनाज को दबाकर रखा था। कस्डोल के एक व्यापारी माखन ने अपने गोदाम में अनाज जमा कर रखा था, उसे अपने कब्जे में कर वीरनारायण सिंह ने किसानों को बांट दिया था। व्यापारी की शिकायत पर नारायण सिंह पर लूटमार और डकैती का आरोप लगाकर 24 अक्टूबर 1856 को रायपुर जेल में डाल दिया गया था। विभागध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि 1857 का विद्रोह जब प्रारंभ हुआ उसकी हलचल छत्तीसगढ़ में भी हुआ। 28 अगस्त 1857 को नारायण सिंह जेल से भागने में सफल हो गये। नारायण सिंह जानते थे कि ब्रिटीश सरकार उन पर कार्यवाही करेगी।

अतः उन्होंने 500 सैनिकों की सेना संगठित की थी। सोनाखान पर आक्रमण की जिम्मेदारी कर्नल स्मित को सौंपी गई। नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर इलियेट ने लिखा था :- मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को प्रस्तुत किया गया और उस पर 1857 की अधिनियम की धारा 6 एक्ट 14 के अंतर्गत उस पर अभियोग लगाया गया। मैंने उसे फांसी की सजा सुनाई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रोफेसर होरेन्द्र बहादुर ठाकुर ने कहा कि नारायण सिंह के रूप में अंग्रेजों के समक्ष चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज इस बात से लगता है कि नारायण सिंह को फांसी दिए जाने के बाद सरकार ने उन जमींदारों को पुरस्कार किया, जिन्होंने नारायण सिंह के विद्रोह के दमन में उनकी मदद की इस अवसर पर प्राचार्य डॉ.टांडेकर द्वारा वीरनारायण सिंह से संबंधित प्रश्न पूछा गया और विभाग के उत्तर देने वाले विद्यार्थियों वैशल्या, पेमिन धारगवे, वर्षा साहू, नेमचंद-साहिल रावटे को पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर डॉ.अजय शर्मा, डॉ.हेमलता साहू तथा एम.ए.के विद्यार्थी उपस्थित थे।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

### इतिहास विभाग में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन आयोजित



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रारंभ में प्राचार्य डॉ.के.एल. टांडेकर द्वारा अभिभावकों को महाविद्यालय से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया तथा उन्होंने पालकों को कहा कि आप हमेशा अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें तथा महाविद्यालय के विकास से संबंधित अगर कोई सुझाव प्रदान करते हैं, तो अवश्य उस पर अमल किया जाएगा।

विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने अभिभावकों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी साथ ही विभाग द्वारा वर्ष में राष्ट्रीय भ्रमण द्वारा विद्यार्थियों को होने वाले लाभों के बारे में बताया। महाविद्यालय द्वारा संचालित विवेकानंद कोष की भी जानकारी प्रदान की गई। विभाग में समय-समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे उनके अनुभव का लाभ विद्यार्थी प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त सभी अभिभावकों ने महाविद्यालय तथा विभाग से मिलने वाली सुविधाओं पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की। इस अवसर पर अभिभावकगण श्री पुरुषोत्तम तिवारी, श्री गौतमराय यादव, श्री सच्चिदानंद सोनकर, श्री चैतराम साहू, श्रीमती सुशीला बाई साहू, श्रीमती रहमत बेग, प्रतिभा देवांगन, श्री निखिल दास वैष्णव, श्रीमती हेमबाई साहू, श्री भोजराम साहू तथा अन्य अभिभावक उपस्थित रहे। संचालन प्रो. हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर तथा आभार हेमलता साहू द्वारा किया गया।

(डॉ. के.एल.टांडेकर)

प्राचार्य

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय  
राजनांदगांव (छ.ग.)



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

नई राष्ट्रीय शिक्षानीति का उद्देश्य बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है – डॉ.शैलेन्द्र सिंह



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा प्राचार्य डॉ.के.एल. टाण्डेकर के मार्गदर्शन में नई राष्ट्रीय शिक्षानीति के अंतर्गत विस्तार गतिविधि हेतु ठाकुर प्यारेलाल सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इतिहास विभाग

के विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षानीति का उद्देश्य बहुविषयक और समग्र शिक्षा है। नई शिक्षानीति के अंतर्गत 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षानीति के अंतर्गत कला विज्ञान का व्यावसायिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के नीचे कोई औपचारिक अंतर नहीं होगा। विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुरूप विषयों का चुनाव कर सकते हैं। विज्ञान का विद्यार्थी भी इतिहास विषय को जी.ई.विषय के रूप में चुन सकती है। इंटरशिप को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। विस्तार गतिविधि के अंतर्गत प्रो.हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर द्वारा इतिहास अध्ययन के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि इतिहास से बुद्धिमतापूर्ण देशभक्ति विकसित करना, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का अध्ययन, प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से वर्तमान पीढ़ी को अवगत करना है। प्यारेलाल स्कूल के प्राचार्य श्री भूषण साव ने इस कार्य की प्रशंसा की तथा कहा कि इससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और जब वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे तो वे नई शिक्षा नीति के सभी पहलुओं से परिचित होंगे। इस अवसर पर एम.ए.के विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे तथा सही जवाब देने पर उन्हें पुरस्कृत किया।



छात्र/छात्राओं की व्यक्तिगत एवं विषय  
संबंधी समस्या निवारण की जानकारी

सत्र - 2023-24

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

क्र.	छात्र/छात्राओं का नाम	कक्षा	समस्या	दिनांक	समाधान	प्राध्यापक का नाम	विद्यार्थी का हस्ताक्षर	प्राध्यापक का हस्ताक्षर	विद्यार्थी का मोबाइल नं०
1.	अर्चना कोरवी	B.A. III Sem.	एडमिशन से Related समस्या थी/ documents से संबंधित	19/7/2023	विद्यार्थी को उचित मार्गदर्शन एवं सलाह	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	Anuma	[Signature]	7489185889
2.	गंगा साहू	M.A. I Sem.	एडमिशन फीस न देब पाने से संबंधित शार्विक समस्या था रही थी।	22/7/2023	महाविद्यालय के विवेकानन्द कोष से महाभ्रत संबंधी छात्रवृत्ति पदान की गई।	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	गंगा	[Signature]	8602130826
3.	मोहम्मद जैद	B.A. III Sem.	टाइम टेबल से संबंधित समस्या/र का (ही थी) शिका	27/7/2023	टाइम टेबल दिखाकर/समाझाकर, समस्या/शिका का समाधान किया गया।	जे. हिलेड लहडुकर डडुकर	[Signature]	[Signature]	8085376591
4.	मृणाली	M.A. part	एडमिशन फीस हेतु शार्विक समस्या	17/08/2023	विभाग, शार्विक सहायता और विवेकानन्द फंड के डारा सहायता पदान करके एडमिशन दिया गया।	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	मृणाली	[Signature]	9685326365
5.	पैकाल्या साहू	M.A. II sem.	NET/SET संबंधी कितना से Related समस्या बताई गई	12/12/2023	विभाग में उपलब्ध books पदान करके समस्या का समाधान किया गया।	हेमलता साहू	[Signature]	[Signature]	6266554784
6.									
7.									
8.									

[Signature]  
Dr. SHALENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Durgam P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)

**इतिहास विभागः**  
**सत्र-2023-2024**  
**विभागीय अकादमिक कैलेंडर**

क्र.	कार्यक्रम/गतिविधियां	प्रस्तावित तिथि
1.	विभागीय बैठक	जुलाई प्रथम सप्ताह
2.	अगस्त क्रांति	8 अगस्त
3.	पटेल जयंती	31 अक्टूबर
4.	शहीद वीर नारायण जयंती	10 दिसंबर
5.	शिक्षक अभिभावक सम्मेलन	जनवरी
6.	नेताजी सुभाष चंद जयंती	23 जनवरी
7.	नेट स्लेट हेतु कक्षाएं	जनवरी एवं फरवरी
8.	एल्यूमिनी' सम्मेलन	फरवरी प्रथम सप्ताह
9.	ऐतिहासिक भ्रमण क्षेत्रीय	फरवरी प्रथम सप्ताह
10.	राष्ट्रीय भ्रमण	फरवरी अंतिम सप्ताह

इसके अतिरिक्त समय अनुकूल शैक्षणिक एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विभिन्न व्याख्यान का आयोजन

Principal  
Govt. Digvijay College  
Rajnandgaon (C.G.)

*Singh*  
Dr. SHAILENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Digvijay P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)

क्र.	क्षेत्र/धारा का नाम	सितम्बर				अक्टूबर				नवम्बर				दिसम्बर			
		Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	
1.	चंदन यादव	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
2.	रोमेश सेन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
3.	दीक्षा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
4.	विक्रम कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
5.	एलविश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
6.	हर्षा यादव	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
7.	हरीश कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
8.	बिलेश्वरी सिंघा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
9.	शिवेन्द्र कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
10.	मुस्कान वंजारे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
11.	शोशनी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
12.	प्रमोद सिंघा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
13.	रुग्हा प्रधान	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
14.	विजय भाकंडे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
15.	रामेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
16.	शिवम कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
17.	धनेश्वर साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
18.	शैल राज डी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
19.	शोशनी राजपूत	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
20.	तमन्ना	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
21.	निशा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	

पत्र - शनिवार

सितम्बर - 9, 16, 23, 30  
 अक्टूबर - 7, 14, 21, 28  
 नवम्बर - 4, 18, 25  
 दिसम्बर - 2, 9, 16, 23, 30

Teacher's Name

1. डॉ. शिवेन्द्र सिंह - [Signature]
2. प्रो. शिवेन्द्र बहादुर - [Signature]

Dr. SHAILENDRA SINGH  
 Department of History  
 Govt. Digvijay P.G. College  
 Rajnandgaon (C.G.)

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	सितम्बर				अक्टूबर			
		Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All
1.	अर्चना कोटेली	P	P	P	A	P	P	P	P
2.	मालती शादव	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	डाकाश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विवेक सिन्हा	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	मधु राजपूत	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	पाशेल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	डाकाश कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P
8.	एजलीना तिवारी	P	P	P	P	P	P	A	P
9.	मोहम्मद जैद के	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	समीर साहू	A	P	P	P	P	P	P	P
11.	इंकिता चन्दाकर	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	एकता सार्वी	P	A	P	P	P	P	P	P
13.	धनराज	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	कृष्ण कान्त साहू	P	P	P	P	A	P	P	P
15.	मैधा वासुदेव	A	P	P	A	P	P	P	P
16.	रितेश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रिदिक देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	उमेश शादव	P	A	P	P	P	P	P	P
19.	पृथ्वी राय	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	मेधा	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	मुनेश ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	अभिनेह	P	P	P	P	A	P	P	P


प्रति सप्ताह - शुक्रवार

सितम्बर - 1, 8, 15, 22  
 अक्टूबर - 6, 13, 20, 27  
 नवम्बर - 3, 17, 24  
 दिसम्बर - 1, 8, 15

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	नवम्बर				दिसम्बर			
		Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All
1.	अर्चना कोटेली	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	मालती शादव	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	डाकाश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विवेक सिन्हा	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	मधु राजपूत	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	पाशेल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	डाकाश कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P
8.	एजलीना तिवारी	P	P	P	P	P	P	A	P
9.	मोहम्मद जैद के	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	समीर साहू	A	P	P	P	P	P	P	P
11.	इंकिता चन्दाकर	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	एकता सार्वी	P	A	P	P	P	P	P	P
13.	धनराज	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	कृष्ण कान्त साहू	P	P	P	P	A	P	P	P
15.	मैधा वासुदेव	A	P	P	A	P	P	P	P
16.	रितेश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रिदिक देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	उमेश शादव	P	A	P	P	P	P	P	P
19.	पृथ्वी राय	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	मेधा	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	मुनेश ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	अभिनेह	P	P	P	P	A	P	P	P

Teacher's Name

- 1) डॉ. अजय शर्मा
- 2) इमेला साहू



विषय -

क्र.	धारा/धारा का नाम	जनवरी				फरवरी			
		Topic	Alt	Topic	Alt	Topic	Alt	Topic	Alt
1	श्रीलक्ष्मी	P	P	P	P	P	P	P	P
2	मुष्पा देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
3	मीमांसी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4	मीमांसी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
5	नेहा चादव	P	P	P	P	P	P	P	P
6	लीलि चादव	A	P	P	P	P	P	P	P
7		P	P	P	P	P	P	P	P
8		P	P	P	P	P	P	P	P
9		P	P	P	P	P	P	P	P
10		P	P	P	P	P	P	P	P
11		P	P	P	P	P	P	P	P
12		P	P	P	P	P	P	P	P
13		P	P	P	P	P	P	P	P
14		P	P	P	P	P	P	P	P
15		P	P	P	P	P	P	P	P
16		P	P	P	P	P	P	P	P
17		P	P	P	P	P	P	P	P
18		P	P	P	P	P	P	P	P
19		P	P	P	P	P	P	P	P
20		P	P	P	P	P	P	P	P
21		P	P	P	P	P	P	P	P

जनवरी - 6, 13, 20, 27  
फरवरी - 3, 10, 17, 24  
मार्च - 2, 9, 16, 23, 30

उत्ति सप्ताह - शनिवार

B.A. II semester

मार्च

क्र.	धारा/धारा का नाम	मार्च			
		Topic	Alt	Topic	Alt
1		P	P	P	P
2		P	P	P	P
3		P	P	P	P
4		P	P	P	P
5		P	P	P	P
6		P	P	P	P
7		P	P	P	P
8		P	P	P	P
9		P	P	P	P
10		P	P	P	P
11		P	P	P	P
12		P	P	P	P
13		P	P	P	P
14		P	P	P	P
15		P	P	P	P
16		P	P	P	P
17		P	P	P	P
18		P	P	P	P
19		P	P	P	P
20		P	P	P	P
21		P	P	P	P

Teacher's name

- 1) डॉ. शैलेंद्र सिंह
- 2) प्रो. विवेक कानुन शर्मा

विषय -

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	विषय	नवम्बर																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	संजना	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	पावल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	पारस देवांगन	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	केशव साहू	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	जागेन्द्र कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6.	निशा साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	चन्द्रहास	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8.	पुष्पा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9.	शिवानी राजपूत	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	वनीता राजपूत	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11.	जयश्री ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	रीजेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13.	अमेश कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	राहुल कागडे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	पूजा कागडे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.	सिया देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रुच कुमारी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	विजय देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19.	अंजली	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	इशा साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

सितम्बर - 4, 11, 25

अक्टूबर - 9, 16, 30

नवम्बर - 6, 13, 20

दिसम्बर - 4, 11

जनवरी - 8, 15, 22, 29

फरवरी - 5, 12, 19, 26

प्रति सप्ताह - सोमवार

कक्षा - B.A. 1st sem / II sem

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	विषय	दिसम्बर																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	संजना	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	पावल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	पारस देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	केशव साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	जागेन्द्र कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6.	निशा साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	चन्द्रहास	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8.	पुष्पा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9.	शिवानी राजपूत	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	वनीता राजपूत	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11.	जयश्री ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	रीजेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13.	अमेश कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	राहुल कागडे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	पूजा कागडे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.	सिया देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रुच कुमारी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	विजय देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19.	अंजली	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	इशा साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Teacher's name

- ① डॉ. शैलेन्द्र सिंह
- ② डॉ. हिन्दू ठाकुर

Slow learner

Page No.  
Date:

विषय -

क्र.	दस्ता/धारा का नाम	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
1.	कुशल वर्मा	P	P	P
2.	हितेश्वरी वर्मा	P	P	P
3.	शक्ति का सिद्धा	P	P	P
4.	मानस झांगल	P	P	P
5.	आमिनी साहू	P	A	P
6.	भाग्य पल्लव	P	P	P
7.	शिवेश्वरी	A	P	P
8.	नोमिन	P	P	P
9.	प्रियंका वर्मा	P	P	P
10.	सुमिका	P	P	P
11.	आरती श्रीवास	P	P	P
12.	महिमा	P	P	P
13.	उमेश्वर	P	P	P
14.	रोमांश-धरुवेंशी	P	P	P
15.	मानसी	P	P	P
16.	कृष्णाकांत	P	P	P
17.	मोहेश्वरी	P	P	P
18.	दामिनी	P	P	P
19.	एकता साहू	P	P	P
20.	चींदनी	P	P	P
21.	अंशु	P	P	P
22.	अंशु	P	P	P

प्रति सप्ताह - 5 गलतियाँ

- सितम्बर - 5, 12, 26
- अक्टूबर - 3, 10, 17, 31
- नवम्बर - 7, 21, 28
- दिसम्बर - 5, 12, 19
- जनवरी - 9, 16, 23, 30
- फरवरी - 6, 13, 20
- मार्च - 5, 12, 19, 26

सत्र - 2023-24

कक्षा - B.A. III sem.

Page No.  
Date:

विषय ( ) जनवरी फरवरी मार्च

क्र.	दस्ता/धारा का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	कुशल वर्मा	P	P	P
2.	हितेश्वरी वर्मा	P	P	P
3.	शक्ति का सिद्धा	P	P	P
4.	मानस झांगल	P	P	P
5.	आमिनी साहू	P	P	P
6.	भाग्य पल्लव	P	P	P
7.	शिवेश्वरी	P	P	P
8.	नोमिन	P	P	P
9.	प्रियंका वर्मा	P	P	P
10.	सुमिका	P	P	P
11.	आरती श्रीवास	P	P	P
12.	महिमा	P	P	P
13.	उमेश्वर	P	P	P
14.	रोमांश-धरुवेंशी	P	P	P
15.	मानसी	P	P	P
16.	कृष्णाकांत	P	P	P
17.	मोहेश्वरी	P	P	P
18.	दामिनी	P	P	P
19.	एकता साहू	P	P	P
20.	चींदनी	P	P	P
21.	अंशु	P	P	P
22.	अंशु	P	P	P

Teacher's name

1. डॉ. अजय शर्मा - [Signature]
2. डॉ. हेमलता साहू - [Signature]



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई गई



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. के.एल.टान्डेकर ने

कहा कि सरदार पटेल कड़े अनुशासन के पक्षपाती थे। वे अनुशासनहीनता के कार्यों को सहन नहीं कर सकते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उपर से वे रूखे निष्ठुर और अभिमानी से लगते थे। परन्तु भीतर से वे सरल स्वभाव के थे। विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि सरदार पटेल दृढ़ संकल्प, के धनी थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वे घबराते नहीं थे। उनमें दल संगठित करने की अद्भूत क्षमता थी। वे जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देते थे। उन्होंने चर्चिल को जवाब देते हुए कहा “आप लोग यह सोचकर बोले कि आप स्वतंत्र भारत से बातचीत कर रहे हैं।”

हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर ने कहा – 1927 में वारडोली सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। इसी समय जनता ने उनको सरदार की उपाधि से सुशोधित किया और उनकी गणना भारत के प्रमुख नेताओं में होने लगी। कार्यक्रम का संचालन एम.ए.पूर्व की छात्र प्रगति भूआर्य ने किया।





कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## इतिहास विभाग में मनाया गया सुभाषचंद्र बोस जयंती



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा सुभाषचंद्र बोस जयंती मनाई गई। प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर मुख्य वक्ता श्री जितेन्द्र साखरे सहा.प्राध्यापक इतिहास, रानी रश्मि देवी महाविद्यालय, खैरागढ़, विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह द्वारा सुभाषचंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि वीर सावरकर ने सुभाषचंद्र बोस की क्षमता को पहचाना तथा छोटै-छोटे आंदोलनों में शक्ति व्यय करने के स्थान पर कोई ठोस कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने सुभाषचंद्र बोस को राय दी कि उन्हे देश के बाहर जाकर अन्य देशों से सहायता लेकर भारत को स्वतंत्रता के प्रयत्न करने

चाहिए। सुभाषचंद्र बोस ने रूस, इटली, जर्मनी आदि देशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। जर्मनी सरकार से मिलने के बाद उन्होंने फ्री इंडिया सेन्टर की स्थापना की। प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर ने कहा कि 1923 में चितरंजन दास द्वारा सुभाष को स्वराज दल का महामंत्री का कार्य सौंपा गया। उनके प्रयासों से कलकत्ता नगर निगम के चुनावों में स्वराज दल की सफलता मिली। उन्होंने कलकत्ता की सड़कों के नाम अंग्रेजी के नाम से बदल कर भारतीय महापुरुषों के नाम कर दिए। गांधीजी से वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर "फारवर्ड.ब्लाक" नामक दल बनाया। मुख्य वक्ता श्री जितेन्द्र साखरे ने कहा कि सुभाष बचपन से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। सुभाषचंद्र बोस पर विवेकानंद का काफी प्रभाव था। उन्होंने 1920 में आई.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की किंतु अंग्रेजी शासन के अधीन नौकरी करना स्वीकार

नही किया। 22 सितम्बर 1944 को सुभाष बोस ने "शहीद दिवस" मनाया तथा घोषणा की "हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूंगा" दूर्भाग्यवश उनका यह स्वप्न पूरा पूरा न हो सका। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाषचंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना की जिसे जापान, जर्मनी, चीन, इटली, कोरिया, फिलिपिंग आदि देशों ने मान्यता दी थी कार्यक्रम का संचालन एम.ए.पूर्व की छात्रा प्रगति नोन्हारे ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. अजय शर्मा द्वारा किया गया।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎: & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## इतिहास विभाग में इतिहास दर्शन पर व्याख्यान



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में इतिहास दर्शन विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रारंभ में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने व्याख्यान की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और कहा कि इतिहास दर्शन का उद्देश्य स्वयं का चिंतन विश्व इतिहास तथा इतिहास के सामान्य नियमों से है। इसे इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जा सकती है। मुख्यवक्ता डॉ.आशा चौधरी शासकीय नेहरू महाविद्यालय डोंगरगढ़ ने इतिहास दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इतिहास घटनाओं में से एक घटना मात्र को देखता है, जबकि दर्शन इतिहास के प्रामाण्य अर्थ और वास्तविकता को निश्चित करने का दावा करता है। इतिहास के प्रामाण्य का प्रश्न नहीं उठता। जो सफल होता है उसी का इतिहास होता है। इतिहास में मार्क्स का महत्व लेनिन और स्टालिन के कारण है।

अन्यथा मार्क्स का पता केवल सामाजिक विज्ञान तक ही सीमित रहता। परिणाम स्वरूप इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतित कालीन घटना के निहित मानसिक प्रक्रिया अथवा विचार को वर्तमान और भविष्य में प्रतिरोधित करना मात्र होता है।

कार्यक्रम का संचालन प्रो.हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर तथा आभार डॉ.हेमलता साहू द्वारा किया गया।



## छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में शहीद वीरनारायण सिंह जयंती मनाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर ने कहा कि वीरनारायण सिंह छत्तीसगढ़ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नारायण सिंह का जन्म 1795 में विझवार जनजाति में हुआ था। 1856 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अल्पवर्षा के कारण भयंकर अकाल पड़ा तब वीरनारायण

सिंह ने ब्रिटीश कम्पनी को कर देने में समर्थता व्यक्त की और सहायता का निवेश किया। संकट की इस घड़ी में कुछ व्यापारियों ने अनाज को दबाकर रखा था। कस्डोल के एक व्यापारी माखन ने अपने गोदाम में अनाज जमा कर रखा था, उसे अपने कब्जे में कर वीरनारायण सिंह ने किसानों को बांट दिया था। व्यापारी की शिकायत पर नारायण सिंह पर लूटमार और डकैती का आरोप लगाकर 24 अक्टूबर 1856 को रायपुर जेल में डाल दिया गया था। विभागध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि 1857 का विद्रोह जब प्रारंभ हुआ उसकी हलचल छत्तीसगढ़ में भी हुआ। 28 अगस्त 1857 को नारायण सिंह जेल से भागने में सफल हो गये। नारायण सिंह जानते थे कि ब्रिटीश सरकार उन पर कार्यवाही करेगी।

अतः उन्होंने 500 सैनिकों की सेना संगठित की थी। सोनाखान पर आक्रमण की जिम्मेदारी कर्नल स्मित को सौंपी गई। नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर इलियेट ने लिखा था :- मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को प्रस्तुत किया गया और उस पर 1857 की अधिनियम की धारा 6 एक्ट 14 के अंतर्गत उस पर अभियोग लगाया गया। मैंने उसे फांसी की सजा सुनाई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रोफेसर होरेन्द्र बहादुर ठाकुर ने कहा कि नारायण सिंह के रूप में अंग्रेजों के समक्ष चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज इस बात से लगता है कि नारायण सिंह को फांसी दिए जाने के बाद सरकार ने उन जमींदारों को पुरस्कार किया, जिन्होंने नारायण सिंह के विद्रोह के दमन में उनकी मदद की इस अवसर पर प्राचार्य डॉ.टांडेकर द्वारा वीरनारायण सिंह से संबंधित प्रश्न पूछा गया और विभाग के उत्तर देने वाले विद्यार्थियों वैशल्या, पेमिन धारगवे, वर्षा साहू, नेमचंद-साहिल रावटे को पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर डॉ.अजय शर्मा, डॉ.हेमलता साहू तथा एम.ए.के विद्यार्थी उपस्थित थे।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

### इतिहास विभाग में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन आयोजित



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रारंभ में प्राचार्य डॉ.के.एल. टांडेकर द्वारा अभिभावकों को महाविद्यालय से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया तथा उन्होंने पालकों को कहा कि आप हमेशा अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें तथा महाविद्यालय के विकास से संबंधित अगर कोई सुझाव प्रदान करते हैं, तो अवश्य उस पर अमल किया जाएगा।

विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने अभिभावकों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी साथ ही विभाग द्वारा वर्ष में राष्ट्रीय भ्रमण द्वारा विद्यार्थियों को होने वाले लाभों के बारे में बताया। महाविद्यालय द्वारा संचालित विवेकानंद कोष की भी जानकारी प्रदान की गई। विभाग में समय-समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे उनके अनुभव का लाभ विद्यार्थी प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त सभी अभिभावकों ने महाविद्यालय तथा विभाग से मिलने वाली सुविधाओं पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की। इस अवसर पर अभिभावकगण श्री पुरुषोत्तम तिवारी, श्री गौतमराय यादव, श्री सच्चिदानंद सोनकर, श्री चैतराम साहू, श्रीमती सुशीला बाई साहू, श्रीमती रहमत बेग, प्रतिभा देवांगन, श्री निखिल दास वैष्णव, श्रीमती हेमबाई साहू, श्री भोजराम साहू तथा अन्य अभिभावक उपस्थित रहे। संचालन प्रो. हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर तथा आभार हेमलता साहू द्वारा किया गया।

(डॉ. के.एल.टांडेकर)

प्राचार्य

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय  
राजनांदगांव (छ.ग.)



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

नई राष्ट्रीय शिक्षानीति का उद्देश्य बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है – डॉ.शैलेन्द्र सिंह



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा प्राचार्य डॉ.के.एल. टाण्डेकर के मार्गदर्शन में नई राष्ट्रीय शिक्षानीति के अंतर्गत विस्तार गतिविधि हेतु ठाकुर प्यारेलाल सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इतिहास विभाग

के विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षानीति का उद्देश्य बहुविषयक और समग्र शिक्षा है। नई शिक्षानीति के अंतर्गत 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षानीति के अंतर्गत कला विज्ञान का व्यावसायिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के नीचे कोई औपचारिक अंतर नहीं होगा। विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुरूप विषयों का चुनाव कर सकते हैं। विज्ञान का विद्यार्थी भी इतिहास विषय को जी.ई.विषय के रूप में चुन सकती है। इंटरशिप को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। विस्तार गतिविधि के अंतर्गत प्रो.हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर द्वारा इतिहास अध्ययन के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि इतिहास से बुद्धिमतापूर्ण देशभक्ति विकसित करना, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का अध्ययन, प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से वर्तमान पीढ़ी को अवगत करना है। प्यारेलाल स्कूल के प्राचार्य श्री भूषण साव ने इस कार्य की प्रशंसा की तथा कहा कि इससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और जब वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे तो वे नई शिक्षा नीति के सभी पहलुओं से परिचित होंगे। इस अवसर पर एम.ए.के विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे तथा सही जवाब देने पर उन्हें पुरस्कृत किया।

छात्र/छात्राओं की व्यक्तिगत एवं विषय  
संबंधी समस्या निवारण की जानकारी

सत्र - 2023-24

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

क्र.	छात्र/छात्राओं का नाम	कक्षा	समस्या	दिनांक	समाधान	प्राध्यापक का नाम	विद्यार्थी का हस्ताक्षर	प्राध्यापक का हस्ताक्षर	विद्यार्थी का मोबाइल नं०
1.	अर्चना कोरवी	B.A. III Sem.	एडमिशन से Related समस्या थी Documents से संबंधित	19/7/2023	विद्यार्थी को उचित मार्गदर्शन एवं सलाह	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	Anuma	[Signature]	7489185889
2.	गंगा साहू	M.A. I Sem.	एडमिशन फीस न देब पाने से संबंधित शार्विक समस्या था रही थी।	22/7/2023	महाविद्यालय के विवेकानन्द कोष से महाभ्रत संबंधी छात्रवृत्ति पदान की गई।	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	गंगा	[Signature]	8602130826
3.	मोहम्मद जैद	B.A. III Sem.	टाइम टेबल से संबंधित समस्या/का (ही थी) शिका	27/7/2023	टाइम टेबल दिखाकर/समाझाकर, समस्या/शिका का समाधान किया गया।	जे. हिलेड लहडुकर डंडुकर	[Signature]	[Signature]	8085376591
4.	मृणाली	M.A. part	एडमिशन फीस हेतु शार्विक समस्या	17/08/2023	विभाग, शार्विक सहायता और विवेकानन्द फंड के डारा सहायता पदान करके एडमिशन दिया गया।	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	मृणाली	[Signature]	9685326365
5.	पैशाखा साहू	M.A. II sem.	NET/SET संबंधी कितना से Related समस्या बताई गई	12/12/2023	विभाग में उपलब्ध books पदान करके समस्या का समाधान किया गया।	हेमलता साहू	[Signature]	[Signature]	6266554784
6.									
7.									
8.									

[Signature]  
Dr. SHALENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Durgam P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)

**इतिहास विभागः**  
**सत्र-2023-2024**  
**विभागीय अकादमिक कैलेंडर**

क्र.	कार्यक्रम/गतिविधियां	प्रस्तावित तिथि
1.	विभागीय बैठक	जुलाई प्रथम सप्ताह
2.	अगस्त क्रांति	8 अगस्त
3.	पटेल जयंती	31 अक्टूबर
4.	शहीद वीर नारायण जयंती	10 दिसंबर
5.	शिक्षक अभिभावक सम्मेलन	जनवरी
6.	नेताजी सुभाष चंद्र जयंती	23 जनवरी
7.	नेट स्लेट हेतु कक्षाएं	जनवरी एवं फरवरी
8.	एल्यूमिनी' सम्मेलन	फरवरी प्रथम सप्ताह
9.	ऐतिहासिक भ्रमण क्षेत्रीय	फरवरी प्रथम सप्ताह
10.	राष्ट्रीय भ्रमण	फरवरी अंतिम सप्ताह

इसके अतिरिक्त समय अनुकूल शैक्षणिक एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु विभिन्न व्याख्यान का आयोजन

Principal  
Govt. Digvijay College  
Rajnandgaon (C.G.)

*Singh*  
Dr. SHAILENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Digvijay P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)

क्र.	क्षेत्र/धारा का नाम	सितम्बर				अक्टूबर				नवम्बर				दिसम्बर			
		Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	Topic Att	
1.	चंदन यादव	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	रोमेश सेन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P
3.	दीक्षा	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विक्रम कुमार	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	A	P
5.	एलविश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	हर्ष यादव	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	हरीश कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8.	बिलेश्वरी सिंघा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A
9.	शिवेन्द्र कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	मुस्कान वंजारे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P	P	P	P	P
11.	शोशनी साहू	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	प्रमोद सिंघा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13.	रुग्ण प्रधातु	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	विजय भाकंडे	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	रामेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.	शिवम कुमार	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	धनेश्वर साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	शैल राज डी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19.	शोशनी राजपूत	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	तमन्ना	P	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	A	P	P
21.	निशा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

पत्र - शनिवार

- सितम्बर - 9, 16, 23, 30
- अक्टूबर - 7, 14, 21, 28
- नवम्बर - 4, 18, 25
- दिसम्बर - 2, 9, 16, 23, 30

Teacher's Name

- 1) डॉ. शिवेन्द्र सिंह - [Signature]
- 2) प्रो. शिवेन्द्र बहादुर - [Signature]

Dr. SHAILENDRA SINGH  
Department of History  
Govt. Digvijay P.G. College  
Rajnandgaon (C.G.)




क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	सितम्बर				अक्टूबर			
		Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All
1.	अर्चना कोठारी	P	P	P	A	P	P	P	P
2.	मालती शादव	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	डाकाश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विवेक सिन्हा	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	मधु राजपूत	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	पाशेल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	डाकाश कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P
8.	एजलीना तिवारी	P	P	P	P	P	P	A	P
9.	मोहम्मद जैद	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	समीर साहू	A	P	P	P	P	P	P	P
11.	इंकिता चन्डाकर	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	एकता सार्वी	P	A	P	P	P	P	P	P
13.	धनराज	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	कृष्ण कान्त साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	मैधा वासुदेव	A	P	A	P	P	P	P	P
16.	रितेश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रिदिक देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	उमेश शादव	P	A	P	P	P	P	P	P
19.	पृथ्वी राय	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	मेधा	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	मुनेश ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	अभिनेह	P	P	P	P	A	P	P	P

प्रति सप्ताह - शुक्रवार

- सितम्बर - 1, 8, 15, 22
- अक्टूबर - 6, 13, 20, 27
- नवम्बर - 3, 17, 24
- दिसम्बर - 1, 8, 15

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	नवम्बर				दिसम्बर			
		Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All	Topic All
1.	अर्चना कोठारी	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	मालती शादव	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	डाकाश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	विवेक सिन्हा	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	मधु राजपूत	A	P	P	P	P	P	P	P
6.	पाशेल साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	डाकाश कुमार	P	P	P	A	P	P	P	P
8.	एजलीना तिवारी	P	P	P	P	P	P	A	P
9.	मोहम्मद जैद	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	समीर साहू	A	P	P	P	P	P	P	P
11.	इंकिता चन्डाकर	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	एकता सार्वी	P	A	P	P	P	P	P	P
13.	धनराज	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	कृष्ण कान्त साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	मैधा वासुदेव	A	P	A	P	P	P	P	P
16.	रितेश साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	रिदिक देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	उमेश शादव	P	A	P	P	P	P	P	P
19.	पृथ्वी राय	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	मेधा	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	मुनेश ठाकुर	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	अभिनेह	P	P	P	P	A	P	P	P

- Teacher's Name
- 1) डॉ. अजय शर्मा - [Signature]
  - 2) इमेलना साहू - [Signature]



विषय -

क्र.	धारा/धारा का नाम	जनवरी				फरवरी			
		Topic	Alt	Topic	Alt	Topic	Alt	Topic	Alt
1	श्रीलक्ष्मी	P	P	P	P	P	P	P	P
2	मुष्पा देवांगन	P	P	P	P	P	P	P	P
3	मीमांसी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
4	मीमांसी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P
5	नेहा चादव	P	P	P	P	P	P	P	P
6	लीलि चादव	A	P	P	P	P	P	P	P
7		P	P	P	P	P	P	P	P
8		P	P	P	P	P	P	P	P
9		P	P	P	P	P	P	P	P
10		P	P	P	P	P	P	P	P
11		P	P	P	P	P	P	P	P
12		P	P	P	P	P	P	P	P
13		P	P	P	P	P	P	P	P
14		P	P	P	P	P	P	P	P
15		P	P	P	P	P	P	P	P
16		P	P	P	P	P	P	P	P
17		P	P	P	P	P	P	P	P
18		P	P	P	P	P	P	P	P
19		P	P	P	P	P	P	P	P
20		P	P	P	P	P	P	P	P
21		P	P	P	P	P	P	P	P

जनवरी - 6, 13, 20, 27  
फरवरी - 3, 10, 17, 24  
मार्च - 2, 9, 16, 23, 30

उत्ति सप्ताह - शनिवार

B.A. II semester

मार्च

क्र.	धारा/धारा का नाम	मार्च			
		Topic	Alt	Topic	Alt
1		P	P	P	P
2		P	P	P	P
3		P	P	P	P
4		P	P	P	P
5		P	P	P	P
6		P	P	P	P
7		P	P	P	P
8		P	P	P	P
9		P	P	P	P
10		P	P	P	P
11		P	P	P	P
12		P	P	P	P
13		P	P	P	P
14		P	P	P	P
15		P	P	P	P
16		P	P	P	P
17		P	P	P	P
18		P	P	P	P
19		P	P	P	P
20		P	P	P	P
21		P	P	P	P

Teacher's name

- 1) डॉ. शैलेंद्र सिंह
- 2) प्रो. हिरेन्द्र काठुवा शर्मा

विषय -

क्र.	छात्र/छात्री का नाम	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
1.	संजना	P	P	P
2.	पावल साहू	P	P	P
3.	पारस देवांगन	P	P	A
4.	केशव साहू	A	P	P
5.	जगेंद्र कुमार	P	P	P
6.	निशा साहू	P	P	P
7.	चन्द्रहास	P	P	P
8.	पुष्पा	P	P	P
9.	शुभानी राजपूत	P	P	P
10.	वनीता राज	P	P	P
11.	जयश्री ठाकुर	P	P	P
12.	रीजेश्वरी	P	P	P
13.	अमेश कुमार	P	P	P
14.	राहुल कागडे	P	P	P
15.	पूजा कागडे	P	P	P
16.	सिया देवांगन	P	P	P
17.	रुच कुमारी	P	P	P
18.	विजय देवांगन	P	P	P
19.	अंजली	P	P	P
20.	इशा साहू	P	P	P

सितम्बर - 4, 11, 25  
 अक्टूबर - 9, 16, 30  
 नवम्बर - 6, 13, 20  
 दिसम्बर - 4, 11  
 जनवरी - 8, 15, 22, 29  
 फरवरी - 5, 12, 19, 26

प्रति सप्ताह - शोमवार

कक्षा - B.A. 1st sem / II sem

विद्यार्थी	जनवरी	फरवरी
1.	P	P
2.	P	P
3.	P	P
4.	P	P
5.	P	P
6.	P	P
7.	P	P
8.	P	P
9.	P	P
10.	P	P
11.	P	P
12.	P	P
13.	P	P
14.	P	P
15.	P	P
16.	P	P
17.	P	P
18.	P	P
19.	P	P
20.	P	P

Teacher's name

1. डॉ. शैलेंद्र सिंह -
2. डॉ. हिन्दू महाडुर ठाकुर -

Slow learner

Page No.  
Date

विषय -

क्र.	दस्ता/धारा का नाम	सितम्बर			अक्टूबर			नवम्बर		
		P	P	P	P	P	P	P	P	P
1.	कुशल वर्मा	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2.	दिलेश्वरी वर्मा	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3.	शक्ति का सिद्धा	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.	मानस झांगल	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.	आमिनी साहू	P	A	P	A	P	P	P	P	P
6.	भाग्य पलाद	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7.	शिवेश्वरी	A	P	P	P	P	P	P	A	P
8.	नोमिन	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9.	प्रियंका वर्मा	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10.	शुभिका	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11.	आली प्रीवास	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12.	महिमा	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13.	उमेश्वर	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14.	रवोमेश-धरद्वारा	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15.	मानसी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16.	कृष्णाकाव	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17.	मोहेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18.	दामिनी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19.	एकता साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P
20.	चींदनी	P	P	P	P	P	P	P	P	P
21.	अंजु	P	P	P	P	P	P	P	P	P
22.	अंजना रायण	P	P	P	P	P	P	P	P	P

प्रति सप्ताह - 5 गलतियाँ

- सितम्बर - 5, 12, 26
- अक्टूबर - 3, 10, 17, 31
- नवम्बर - 7, 21, 28
- दिसम्बर - 5, 12, 19
- जनवरी - 9, 16, 23, 30
- फरवरी - 6, 13, 20
- मार्च - 5, 12, 19, 26

दिनांक - 2023-24

कक्षा - B.A. III sem.

Page No.  
Date

विषय ( ) जनवरी फरवरी मार्च

क्र.	दस्ता/धारा का नाम	दिसम्बर			जनवरी			फरवरी			मार्च		
		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
1.	कुशल वर्मा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
2.	दिलेश्वरी वर्मा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
3.	शक्ति का सिद्धा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
4.	मानस झांगल	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
5.	आमिनी साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
6.	भाग्य पलाद	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
7.	शिवेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
8.	नोमिन	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
9.	प्रियंका वर्मा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
10.	शुभिका	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
11.	आली प्रीवास	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
12.	महिमा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
13.	उमेश्वर	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
14.	रवोमेश-धरद्वारा	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
15.	मानसी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
16.	कृष्णाकाव	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
17.	मोहेश्वरी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
18.	दामिनी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
19.	एकता साहू	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
20.	चींदनी	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
21.	अंजु	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
22.	अंजना रायण	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	

Teacher's name

- डा. अजय शर्मा - [Signature]
- डु. हेमलता साहू - [Signature]



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

### सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई गई



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. के.एल.टान्डेकर ने

कहा कि सरदार पटेल कड़े अनुशासन के पक्षपाती थे। वे अनुशासनहीनता के कार्यों को सहन नहीं कर सकते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उपर से वे रूखे निष्ठुर और अभिमानी से लगते थे। परन्तु भीतर से वे सरल स्वभाव के थे। विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि सरदार पटेल दृढ़ संकल्प, के धनी थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वे घबराते नहीं थे। उनमें दल संगठित करने की अद्भूत क्षमता थी। वे जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देते थे। उन्होंने चर्चिल को जवाब देते हुए कहा “आप लोग यह सोचकर बोले कि आप स्वतंत्र भारत से बातचीत कर रहे हैं।”

हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर ने कहा – 1927 में वारडोली सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। इसी समय जनता ने उनको सरदार की उपाधि से सुशोधित किया और उनकी गणना भारत के प्रमुख नेताओं में होने लगी। कार्यक्रम का संचालन एम.ए.पूर्व की छात्र प्रगति भूआर्य ने किया।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## इतिहास विभाग में मनाया गया सुभाषचंद्र बोस जयंती



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा सुभाषचंद्र बोस जयंती मनाई गई। प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर मुख्य वक्ता श्री जितेन्द्र साखरे सहा.प्राध्यापक इतिहास, रानी रश्मि देवी महाविद्यालय, खैरागढ़, विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह द्वारा सुभाषचंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि वीर सावरकर ने सुभाषचन्द्र बोस की क्षमता को पहचाना तथा छोटै-छोटे आंदोलनों में शक्ति व्यय करने के स्थान पर कोई ठोस कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने सुभाषचन्द्र बोस को राय दी कि उन्हें देश के बाहर जाकर अन्य देशों से सहायता लेकर भारत को स्वतंत्रता के प्रयत्न करने चाहिए। सुभाषचन्द्र बोस ने रूस, इटली, जर्मनी आदि देशों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। जर्मनी सरकार से मिलने के बाद उन्होंने फ्री इंडिया सेन्टर की स्थापना की। प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर ने कहा कि 1923 में चितरंजन दास द्वारा सुभाष को स्वराज दल का महामंत्री का कार्य सौंपा गया। उनके प्रयासों से कलकत्ता नगर निगम के चुनावों में स्वराज दल की सफलता मिली। उन्होंने कलकत्ता की सड़कों के नाम अंग्रेजी के नाम से बदल कर भारतीय महापुरुषों के नाम कर दिए। गांधीजी से वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर “फारवर्ड.ब्लॉक” नामक दल बनाया। मुख्य वक्ता श्री जितेन्द्र साखरे ने कहा कि सुभाष बचपन से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। सुभाषचंद्र बोस पर विवेकानंद का काफी प्रभाव था। उन्होंने 1920 में आई.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की किंतु अंग्रेजी शासन के अधीन नौकरी करना स्वीकार

नहीं किया। 22 सितम्बर 1944 को सुभाष बोस ने “शहीद दिवस” मनाया तथा घोषणा की “हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा” दूर्भाग्यवश उनका यह स्वप्न पूरा पूरा न हो सका। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाषचन्द्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना की जिसे जापान, जर्मनी, चीन, इटली, कोरिया, फिलिपिंग आदि देशों ने मान्यता दी थी कार्यक्रम का संचालन एम.ए.पूर्व की छात्रा प्रगति नोन्हारे ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. अजय शर्मा द्वारा किया गया।



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎: & Fax 07744-296331

College Code : 1901

## इतिहास विभाग में इतिहास दर्शन पर व्याख्यान



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में इतिहास दर्शन विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रारंभ में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने व्याख्यान की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और कहा कि इतिहास दर्शन का उद्देश्य स्वयं का चिंतन विश्व इतिहास तथा इतिहास के सामान्य नियमों से है। इसे इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जा सकती है। मुख्यवक्ता डॉ.आशा चौधरी शासकीय नेहरू महाविद्यालय डोंगरगढ़ ने इतिहास दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इतिहास घटनाओं में से एक घटना मात्र को देखता है, जबकि दर्शन इतिहास के प्रामाण्य अर्थ और वास्तविकता को निश्चित करने का दावा करता है। इतिहास के प्रामाण्य का प्रश्न नहीं उठता। जो सफल होता है उसी का इतिहास होता है। इतिहास में मार्क्स का महत्व लेनिन और स्टालिन के कारण है।

अन्यथा मार्क्स का पता केवल सामाजिक विज्ञान तक ही सीमित रहता। परिणाम स्वरूप इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतित कालीन घटना के निहित मानसिक प्रक्रिया अथवा विचार को वर्तमान और भविष्य में प्रतिरोधित करना मात्र होता है।

कार्यक्रम का संचालन प्रो.हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर तथा आभार डॉ.हेमलता साहू द्वारा किया गया।



## छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में शहीद वीरनारायण सिंह जयंती मनाई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर ने कहा कि वीरनारायण सिंह छत्तीसगढ़ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नारायण सिंह का जन्म 1795 में विझवार जनजाति में हुआ था। 1856 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अल्पवर्षा के कारण भयंकर अकाल पड़ा तब वीरनारायण

सिंह ने ब्रिटीश कम्पनी को कर देने में समर्थता व्यक्त की और सहायता का निवेश किया। संकट की इस घड़ी में कुछ व्यापारियों ने अनाज को दबाकर रखा था। कस्डोल के एक व्यापारी माखन ने अपने गोदाम में अनाज जमा कर रखा था, उसे अपने कब्जे में कर वीरनारायण सिंह ने किसानों को बांट दिया था। व्यापारी की शिकायत पर नारायण सिंह पर लूटमार और डकैती का आरोप लगाकर 24 अक्टूबर 1856 को रायपुर जेल में डाल दिया गया था। विभागध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि 1857 का विद्रोह जब प्रारंभ हुआ उसकी हलचल छत्तीसगढ़ में भी हुआ। 28 अगस्त 1857 को नारायण सिंह जेल से भागने में सफल हो गये। नारायण सिंह जानते थे कि ब्रिटीश सरकार उन पर कार्यवाही करेगी।

अतः उन्होंने 500 सैनिकों की सेना संगठित की थी। सोनाखान पर आक्रमण की जिम्मेदारी कर्नल स्मित को सौंपी गई। नारायण सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर इलियेट ने लिखा था :- मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को प्रस्तुत किया गया और उस पर 1857 की अधिनियम की धारा 6 एक्ट 14 के अंतर्गत उस पर अभियोग लगाया गया। मैंने उसे फांसी की सजा सुनाई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रोफेसर होरेन्द्र बहादुर ठाकुर ने कहा कि नारायण सिंह के रूप में अंग्रेजों के समक्ष चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज इस बात से लगता है कि नारायण सिंह को फांसी दिए जाने के बाद सरकार ने उन जमींदारों को पुरस्कार किया, जिन्होंने नारायण सिंह के विद्रोह के दमन में उनकी मदद की इस अवसर पर प्राचार्य डॉ.टांडेकर द्वारा वीरनारायण सिंह से संबंधित प्रश्न पूछा गया और विभाग के उत्तर देने वाले विद्यार्थियों वैशल्या, पेमिन धारगवे, वर्षा साहू, नेमचंद-साहिल रावटे को पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर डॉ.अजय शर्मा, डॉ.हेमलता साहू तथा एम.ए.के विद्यार्थी उपस्थित थे।





कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

### इतिहास विभाग में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन आयोजित



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रारंभ में प्राचार्य डॉ.के.एल. टांडेकर द्वारा अभिभावकों को महाविद्यालय से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया तथा उन्होंने पालकों को कहा कि आप हमेशा अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें तथा महाविद्यालय के विकास से संबंधित अगर कोई सुझाव प्रदान करते हैं, तो अवश्य उस पर अमल किया जाएगा।

विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने अभिभावकों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी साथ ही विभाग द्वारा वर्ष में राष्ट्रीय भ्रमण द्वारा विद्यार्थियों को होने वाले लाभों के बारे में बताया। महाविद्यालय द्वारा संचालित विवेकानंद कोष की भी जानकारी प्रदान की गई। विभाग में समय-समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है, जिससे उनके अनुभव का लाभ विद्यार्थी प्राप्त कर सकें।

उपरोक्त सभी अभिभावकों ने महाविद्यालय तथा विभाग से मिलने वाली सुविधाओं पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की। इस अवसर पर अभिभावकगण श्री पुरुषोत्तम तिवारी, श्री गौतमराय यादव, श्री सच्चिदानंद सोनकर, श्री चैतराम साहू, श्रीमती सुशीला बाई साहू, श्रीमती रहमत बेग, प्रतिभा देवांगन, श्री निखिल दास वैष्णव, श्रीमती हेमबाई साहू, श्री भोजराम साहू तथा अन्य अभिभावक उपस्थित रहे। संचालन प्रो. हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर तथा आभार हेमलता साहू द्वारा किया गया।

(डॉ. के.एल.टांडेकर)

प्राचार्य

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय  
राजनांदगांव (छ.ग.)



कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site- www.digvijaycollege.com

Email: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code : 1901

नई राष्ट्रीय शिक्षानीति का उद्देश्य बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है – डॉ.शैलेन्द्र सिंह



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा प्राचार्य डॉ.के.एल. टाण्डेकर के मार्गदर्शन में नई राष्ट्रीय शिक्षानीति के अंतर्गत विस्तार गतिविधि हेतु ठाकुर प्यारेलाल सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इतिहास विभाग

के विभागाध्यक्ष डॉ.शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षानीति का उद्देश्य बहुविषयक और समग्र शिक्षा है। नई शिक्षानीति के अंतर्गत 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षानीति के अंतर्गत कला विज्ञान का व्यावसायिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के नीचे कोई औपचारिक अंतर नहीं होगा। विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुरूप विषयों का चुनाव कर सकते हैं। विज्ञान का विद्यार्थी भी इतिहास विषय को जी.ई.विषय के रूप में चुन सकती है। इंटरशिप को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। विस्तार गतिविधि के अंतर्गत प्रो.हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर द्वारा इतिहास अध्ययन के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला गया तथा बताया गया कि इतिहास से बुद्धिमतापूर्ण देशभक्ति विकसित करना, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का अध्ययन, प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से वर्तमान पीढ़ी को अवगत करना है। प्यारेलाल स्कूल के प्राचार्य श्री भूषण साव ने इस कार्य की प्रशंसा की तथा कहा कि इससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और जब वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे तो वे नई शिक्षा नीति के सभी पहलुओं से परिचित होंगे। इस अवसर पर एम.ए.के विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे तथा सही जवाब देने पर उन्हें पुरस्कृत किया।